

नाविक भविष्य निधि



नाविक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

छप्पनवीं

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जीखा

2021-2022

-: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 बालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

ई-मेल : spfo-commr@spfo.gov.in

वेबसाइट : www.spfo.gov.in

नाविक भविष्य निधि



नाविक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

छप्पनवीं वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जोखा 2021-22

--: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 वालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

ई-मेल : spfo-commr@spfo.gov.in

वेबसाइट: www.spfo.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	सूची	पृष्ठ संख्या
1.	विषय सूची.....	1
2.	न्यासियों की सूची.....	2
3.	प्रस्तावना.....	3
4.	न्यासी मंडल.....	3
5.	प्रशासन.....	3
6.	व्याप्ती.....	3
7.	वर्ष एक नजर में.....	4
8.	भविष्य निधि अंशदान.....	5
9.	निवेश.....	6
10.	ब्याज.....	6
11.	भविष्य निधि अंशदानों का प्रेषण और वसुली (बकाया).....	7
12.	क्षतिपूर्तियाँ.....	7
13.	अंतिम निकासियाँ.....	7
14.	अप्रत्यर्णीय निकासी / अन्तिम निकासियाँ.....	8
15.	जब्त की गई धनराशि.....	8
16.	अंतरण और छूट	8
17.	लेखा / अन-पोस्टेड मदों का कंप्यूटरीकरण.....	9
18.	प्रशासन खाता.....	9
19.	संगठन की परिसंपत्तियाँ.....	9
20.	राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट.....	9
21.	लेखा परीक्षण.....	10
22.	सतर्कता इकाई की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ.....	10
23.	सूचना का अधिकार (आर टी आई) मामले.....	10
24.	धन्यवाद ज्ञापन.....	10
परिशिष्ट	नाविक भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या .	11
	अनुबंध 1. कुल निवेशों का सारांश	12
	अनुबंध 2. भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किए गए दावों का विवरण	13
	अनुबंध 3. निवेशित राशियों का सारांश और अर्जित ब्याज की स्थिति.....	14
	अनुबंध 4. प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण.....	15
	अनुबंध 5. नाविक भविष्य-निधि संगठन की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सार	16

नाविक भविष्य निधि - न्यासी मंडळ
2021 - 22

अध्यक्ष : 1) श्री अमिताभ कुमार, नौवहन महानिदेशक

केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्य :

- 1) उप वित्त सलाहकर अथवा निदेशक (वित्त) अथवा उप सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 2) उप महानिदेशक नौवहन (कू), (नाविक कल्याण से संबंधित), मुंबई ।
- 3) अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ अथवा उनके द्वारा नामित ।

नियोक्ताओं (पोत मालिकों) के प्रतिनिधि :

- 1) कैप्टन महेंद्र पाल भसीन
मेरीटाईम एसोसियेशन ऑफ शिप ओनर्स, शिप मैनेजर एण्ड एजेंट्स (मासा), मुंबई ।
- 2) कैप्टन राजेश टंडन
फॉरन शिप ओनर्स एण्ड शिप मैनेजर एसोसिएशन (फोसमा), मुंबई ।
- 3) श्री. मनीष वर्मा
इंडियन नैशनल शिपओनर्स एसोसिएशन (इनसा), मुंबई

नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

- 1) श्री. अब्दुलगनी वाई. सेरंग
महासचिव और कोषाध्यक्ष, नैशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडिया, मुंबई ।
- 2) श्री. एस. कलाइकोवन
नैशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडिया, चैन्नई ।
- 3) श्री. अमर सिंह ठाकुर
द मेरीटाईम यूनियन ऑफ इंडिया, मुंबई ।

सचिव : 1) श्री. सुरेन्द्र कुमार
आयुक्त, नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई ।

-: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 वालचन्द हीराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

दूरभाष -

022-2262 0402 (आयुक्त - व्यक्तिगत) 022-2261 6925 / 022-2266 2044 (कार्यालय)

फैक्स : 022-2261 6202

वेबसाईट : www.spfo.gov.in / ई-मेल : spfo-commr@spfo.gov.in

छप्पनवीं वार्षिक रिपोर्ट (2021 - 22)

नाविक भविष्य निधि योजना की कार्यप्रणाली पर वर्ष 2021 - 22 की वार्षिक रिपोर्ट

नाविक भविष्य निधि संगठन के न्यासी मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों को वर्ष 2021- 22 के लिए नाविक भविष्य निधि स्कीम की कार्यप्रणाली पर छप्पनवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है ।

प्रस्तावना

2. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) के अंतर्गत नाविक भविष्य निधि स्कीम की स्थापना की गई जो 1 जुलाई 1964 से प्रभावी है । इसके अन्तर्गत नौवहन उद्योग में कार्यरत नाविकों को वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति लाभ तथा मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए इसकी शुरुआत की गई । भविष्य निधि स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नाविक भविष्य निधि कार्यालय की स्थापना 9 जुलाई, 1966 में की गई ।

न्यासी मंडल

3. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत त्रिपक्षीय न्यासी मंडल का गठन सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार के तीन नामजद प्रतिनिधि तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के तीन-तीन प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर किया गया है । नौवहन महानिदेशक, न्यासी मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं और नाविक भविष्य निधि आयुक्त जो न्यासी मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और मंडल के सचिव हैं ।

प्रशासन

4. आयुक्त की सहायता के लिए प्रशासकीय सह लेखाधिकारी और अन्य कर्मचारी सदस्य हैं । कर्मचारियों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट में दिया गया है ।
 - 4.1 नाविक पाल कोलकता और उनके अधीन तैनात कर्मचारी ने कोलकता में पंजीकृत नाविकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हैं । इसके अतिरिक्त नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई और कोलकता को कम्प्यूटर से जोडा गया है । यह कार्य प्रणाली सफलतापूर्वक नाविकों को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध करवाती है तथा एक कार्मिक को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए वहां तैनात किया गया है ।

व्याप्ति

5. आलोच्य वर्ष के दौरान, नाविक भविष्य निधि स्कीम में लगभग 103,446 खाते शामिल थे ।

वर्ष एक नजर मे

6. वर्ष 2021 - 2022 तथा गत वर्ष के दौरान संगठन के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र. स.	विवरण	2021 - 2022 ₹	2020 - 2021 ₹
6.1	(1) नाविक सदस्यों के खाते (2) प्राप्त भविष्य निधि अंशदान (3) भविष्य निधि खाते में प्रगामी योग का शेष (जब्त खातों को छोड़कर)	1,03,446 163.93 2586.13	97334 156.09 2355.19
6.2	(1) प्राप्त किया गया प्रशासनिक प्रभार (2) प्रशासनिक प्रभार की दर (3) अन्य प्राप्तियाँ (ब्याज सहित) (4) सरकार से अनुदान (5) कुल आय (6) किया गया प्रशासनिक व्यय (7) अधिशेष	5.95 5% 0.59 कुछ नहीं 6.55 5.74 0.81	5.63 5% 0.59 कुछ नहीं 6.24 5.72 0.53
6.3	अन्तिम निकासी : (1) भुगतान किए गए दावों की संख्या (2) भुगतान की गई धनराशि	1120 66.14	377 25.47
6.4	अप्रतिदेय निकासियाँ : (स्कीम के पैरा 58, क, ख, ग, च के अन्तर्गत) (1) भुगतान किए गए दावों की संख्या (2) भुगतान की गई राशि	2021 - 2022 ₹ 443 3.72	2020 - 2021 ₹ 258 2.03
6.5	भविष्य निधि खाते से भुगतान किए गये हर प्रकार के कुल मामलों की संख्या : (6.3 एवं 6.4 उपरोक्त) भुगतान की गई राशि	1563 69.86	635 27.51
6.6	निवेश / पुनः निवेश की धन राशि (भ.नि. खाता)	443.45	390.93
6.7	(i) विनियोग पर अर्जित ब्याज (ii) वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज में वृद्धि / कमी	179.61* (-)-1.52 -0.84%	181.13* (+) 30.24 20%
6.8	सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	134.22 5.75% # की दर से	145.55 7% की दर से

* प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

** गत वर्ष का अपवर्जित प्रोद्भूत ब्याज

मैसर्स डीएचएफएल और आईएल एंड एफएस के खराब होने वाले निवेश की प्रतिपूर्ति के लिए रु.32.74 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

भविष्य निधि अंशदान

7. आलोच्य वर्ष सहित पिछले चार वर्षों में भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति निम्नानुसार है :-

वर्ष	भविष्य निधि अंशदान ₹
2017 - 18	1,225,543,809.29
2018 - 19	1,331,191,296.00
2019 - 20	1,441,953,570.48
2020 - 21	1,560,931,698.19
2021 - 22	1,639,310,230.57

7.1 दिनांक 31-03-2022 को भविष्य निधि खातों में ₹ 2591.61 करोड थे जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	धनराशि	कुल प्रतिशत
1.	भविष्य निधि अंशदान (अर्जित ब्याज सहित)	25,272,226,165.85	97.52
2.	सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने के प्रश्चात उचंत ब्याज खाते का शेष	587,967,146.02	2.27
3	ज़ब्त खाते में शेष	54,813,016.52	0.21
4.	भविष्य निधि उचन्त खाता (लौटाए गए चैक / मनीऑर्डर्स)	1,122,652.30	0.00
	योग :	25,916,128,980.69	100.00

निवेश

8. समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्धारित निवेश की पद्धति के अनुसार भविष्य निधि की धनराशि को निवेशित किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान अंशदान और ब्याज से प्राप्त राशि ₹ 4,434,473,536.44 का निवेश / पुर्ननिवेश किया गया।

क्रमसंख्या	विवरण	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू)
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	2,006,016,897.27
3.	पी.एस.यू / एफ.आय.बॉन्ड्स	1,793,612,413.44
4.	मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	4,00,00,000.00
5.	म्युचअल फंड / इक्विटीज्	59,48,44,225.73
	कुल योग	4,434,473,536.44

- 8.1 कुल राशि ₹ 2591.61 करोड़ जिसका विवरण पैरा 7.1 की रिपोर्ट में है, उसमें से ₹ 2527.22 करोड़ की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्धारित पद्धति के अनुसार निवेशित की गई है जिसे अनुबंध 1 में दर्शाया गया है। ₹ 119,414,156.10 की राशि भविष्य-निधि के बचत खाते में जमा है। निवेशों पर प्राप्त होने वाला प्रोद्भूत ब्याज ₹ 628,340,229.53 है। ₹ 13,835.81 की राशि ज़बती खाते के बैंक के बचत खाते में जमा है। इसके अतिरिक्त ₹ 51,380,434.16 की राशि ज़ब्त खाते से निवेशित की गई है। जिसपर ₹ 3,418,746.55 की राशि का ब्याज अर्जित हुआ है।
- 8.2 भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किये गए दावों का विवरण आलोच्य वर्ष सहित पाँच वर्षों के लिए अनुबंध - 2 में दर्शाया गया है।

ब्याज

9. पिछले वर्ष प्राप्त नकद ₹ 1,796,085,787.01 की तुलना में कुल निवेश की धनराशि पर ₹ 1,811,340,206.39 ब्याज (प्राद्भूत ब्याज मिलाकर) प्राप्त हुआ है। ब्यौरा अनुबंध-3 में दर्शाया गया है।
- 9.1 योजना के अनुच्छेद 51 के अनुसार, ब्याज की दर न्यासी मंडल के साथ परामर्श के बाद सरकारी अनुमोदन से सुनिश्चित की जाती है और उसके अनुसार सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में ब्याज जमा किया जाता है। वर्ष 2021-2022 के लिए 5.75% की वार्षिक दर से ब्याज जमा किया गया।
- 9.2 वर्ष 2021-2022 में सदस्यों के खाते में ब्याज ₹ 1,342,166,980.00 जमा करने के बाद ब्याज उचंत खाते में ₹ 587,967,146.02 की राशि शेष है और निवेशों पर उपलब्ध ब्याज प्रोद्भवन आधार पर है।
- 9.3 आलोच्य वर्ष सहित पिछले वर्ष चार वर्षों में सदस्यों के लिए अनुगत ब्याज दर नीचे दर्शाई जा रही है :-

वर्ष	ब्याज की दर
2017 - 18	8.50%
2018 - 19	8.25%
2019 - 20	7.25%
2020 - 21	7.00%
2021 - 22	5.75%

भविष्य निधि अंशदानों का प्रेषण / वसूली (बकाया)

10. अधिकतर नियोक्ताओं ने निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत भविष्य निधि अंशदान देना जारी रखा है ।
- 10.1 भ.नि. विवरणों की नियमित सुविचारित समीक्षा और मिलान नियमावली के रूप में जारी रहा है और जहाँ कहीं कोई नियोक्ता अंशदान को निर्धारित अवधि में प्रेषित करने में असफल रहा, उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया । जब कोई नियोक्ता, कारण बताओ सूचना देने के बाद भी अंशदान भेजने में असफल रहता है तो ऐसे नियोक्ताओं से नाविक भविष्य निधि अधिनियमन 1966, की धारा 9 के अन्तर्गत बकाया धनराशि की वसूली की जाती है ।
- 10.2 उपरोक्त वसूलियों के अलावा ₹ 346,456.27 की धनराशि विभिन्न नौवहन कम्पनियों पर बकाया है जो कि समापन में चली गयी है । प्रक्रिया विधि अनुसार कार्यालय परिसमापक को इन क्षतिपूर्तियों की धनराशियों के लिए दावे प्रस्तुत किए गए हैं ।

क्षतिपूर्तियाँ

11. आलोच्य वर्ष के दौरान भविष्य निधि अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों के भुगतान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 3,082,953.46 की धनराशि प्राप्त की गई । आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली की स्थिति निम्ननुसार है :-

वर्ष	वसूली गई क्षतिपूर्तियां ₹
2017 - 18	1,545,816.00
2018 - 19	6,513,137.00
2019 - 20	5,497,652.39
2020 - 21	3,191,942.15
2021 - 22	3,082,953.46

अंतिम निकासियां

12. सदस्यता छोड़कर जाने वाले सदस्यों को लगभग ₹ 69.86 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया तथा 1563 खातों को बंद किया गया, आलोच्य वर्ष और गत पाँच वर्षों के दौरान बन्द किए खातों की संख्या तथा भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्ननुसार है ।

वर्ष	मामलों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि ₹
2017 - 18	1288	717,880,076.09
2018 - 19	1260	761,630,097.24
2019 - 20	1498	677,847,795.48
2020 - 21	377	254,721,715.43
2021 - 22	1563	698,542,892.47

- 12.1 सभी अंतिम निकासी और अप्रत्यक्ष निकासियों का भुगतान आर.टी.जी.एस./एनईएफटी के जरिए केनरा बैंक द्वारा नाविकों के खातों में प्रेषित किया जाता है, परंतु जहाँ कहीं केनरा बैंक को नाविक के खातों में त्रुटि या गलती मिलती है तो उन संबंधित राशियों को बैंक खारिज कर देता है और तदानुसार इस कार्यालय को सूचित करता है, नाविक भविष्य निधि कार्यालय संबंधित नाविकों / आश्रितों से पत्र व्यवहार करके त्रुटियों को दूर कर फिर से नाविकों के खातों में धनराशि भेजी जाती है, फिर भी पुराने (रिटर्न चैक) आर सी एच मामलों में संबंधित नाविक एवं उनके परिवारों से पत्र व्यवहार कर संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही नाविक भविष्य निधि राशि का भुगतान किया जाता है ।

अप्रत्यर्णीय निकासी (नॉन-रिफ़न्डेबल) / अन्तिम निकासियाँ

13. अन्तिम/अप्रतिदेय निकासी के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सदस्यों और मृतक सदस्यों के अथवा उनके आश्रितों के अन्तिम निकासी के दावों और अप्रतिदेय निकासियों के दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संगठन ने अपने तंत्र को तैयार किया है। अप्रतिदेय निकासी / अप्रत्यर्णीय निकासी के आवेदन, पेशगी रसीद, मेन्डेट फार्म और चेक लिस्ट (जमा किये गये दस्तावेजों का विवरण) आवेदन फार्म के साथ देना अनिवार्य है इसके लिए सभी प्रकार के फार्म ना.भ.नि. सं. की वेबसाईट में अपलोडेड किए गये हैं इन्हें सिस्टम से डाउनलोड करके आवेदक इन आवेदनों को पूर्ण रूप से भरकर नाविक भविष्य निधि राशि के भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है। संगठन के बेहतर प्रयासों के बावजूद उन मामलों में देरी होती है, जहाँ पर नाविक ने नामांकन फार्म भरकर नाविक भविष्य निधि संगठन में आश्रित को नामांकित नहीं किया है, ऐसे मामलों में नाविक भविष्य निधि संगठन जिलाधिकारी / पुलिस अधिकारी से तुरंत पत्र व्यवहार करके संबंधित नाविक के वारिस का प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास करता है। मृत नाविक के आश्रितों का कानूनन वारिस के दस्तावेज प्राप्त होते ही, नाविक भविष्य निधि संगठन ने नाविकों के सभी देय राशि का भुगतान बैंक के बजाए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के जरिए नाविकों के खातों में सीधा जमा करना प्रारंभ कर दिया है।
- 13.1 इस कार्यालय में आनेवाले नाविकों को अपने रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए उनकी लॉग-इन आईडी तथा पासवर्ड सहित नाविक भविष्य निधि संगठन की वेबसाईट के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है।
- 13.2 नाविक भविष्य निधि संगठन ने वेब सर्वर को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। ताकि नाविक "http://spfo.gov.in" वेबसाईट में जाकर अपना पी.एफ. के खाते का विवरण देख सकें। सभी अन्तिम / अप्रतिदेय निकासी के दावों को नए सॉफ्टवेयर प्रणाली के जरिए ऑन लाइन निपटाया जाता है।

ज़ब्त की गई धनराशि

14. ज़बती खाते में से कुल ₹ 51,380,434.16 की राशि निवेशित की गई है और ₹ 13,835.81 की राशि बचत खाते में जमा है।
- 14.1. आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्षों में ज़ब्त की गई धनराशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	ज़ब्त की गयी धनराशि ₹
2017 - 18	-
2018 - 19	40,230.00
2019 - 20	6,303.00
2020 - 21	17,707.00
2021 - 22	32,155.75

अंतरण और छूट

15. आलोच्य वर्ष की समीक्षा के अंतर्गत नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अंतर्गत इस संगठन से नए नियोक्ता को लेखा अंतरण का कोई मामला संबंधित नाविक सदस्यों से प्राप्त नहीं हुआ है। नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 20 (1) के अंतर्गत किसी भी नियोक्ता को कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई है।

लेखा / अन-पोस्टेड मदों का कंप्यूटरीकरण

16. वर्ष 2021 - 22 के लिए सदस्यों की लेखा पर्चियों की प्रिंटिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है ।
फिर भी नाविक "http://spfo.gov.in" वेबसाईट पर जाकर अपने भविष्य निधी खाते का विवरण देख सकते हैं ।

- 16.1 आलोच्य वर्ष के दौरान बिना इन्दराज किए गए अंशदानों की क्लियरेंस में निम्नलिखित प्रगति हुई है :-

	प्रविष्टियों की संख्या	धनराशि (₹)
पिछली रिपोर्ट के अनुसार शेष	12959	201,894,086.02
जोड़ : वर्ष 2021 - 2022 के दौरान	8646	132,345,759.25
योग	21605	334,239,845.27
घटाएं : वर्ष के दौरान क्लियर (-)	3750	42,748,108.96
शेष	17855	291,491,736.31

प्रशासन खाता

17. योजना का प्रशासनिक व्यय 5% की दर से (नियोक्ता + नाविक) के भविष्य-निधि योगदान से नियोक्ताओं द्वारा संग्रहित किया जाता है । पांच वर्षों के प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण अनुबंध 4 में दिया गया है ।
- 17.1 वर्ष के अन्त में ₹ 106,168,409.93 की धनराशि प्रशासनिक प्रभार खाते में शेष है । प्रशासनिक खाते से ₹ 99,728,138.54 की धनराशि नियतकालीन विनियोजन में निवेशित है । 31 मार्च 2022 को ₹ 6,43,96,55.14 बचत खाते में और ₹ 616.25 की राशि हाथ में शेष है ।
- 17.2 31 मार्च 2022 को पेन्शन / उपदान फण्ड में ₹ 173,100,000.00, की राशी प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी है और शेष ₹ 25,326.24 बचत खाते में जमा है ।

संगठन की परिसंपत्तियाँ

18. नाविक भविष्य निधि स्कीम 1966 के पैरा 44 (3) के अनुसार आलोच्य वर्ष के लिए संगठन की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सारांश इस रिपोर्ट के अनुबंध - 5 में दिया गया है ।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट

19. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/24001/976 – रा.भा. (ए-1) दिनांक 7 फरवरी 1977 के अनुसार जांच बिन्दुओं की स्थापना की गयी है तथा वार्षिक कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए कारवाई की गई । कार्यालय के दैनिक कामकाज में प्रयोग आने वाले सभी फार्मों को द्विभाषिक रूप में अनुवादित करके छपवाया गया है । 80% से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है । हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिन्दी में ही दिये जाते हैं । हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए हिन्दी पखवाडे का आयोजन किया गया है । कम्प्यूटर इनबिल्ट युनिकोड हिन्दी साफ्टवेयर को कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों में एक्टीवेट कर हिन्दी टंकण संबंधी कार्य कम्प्यूटरों से ही किया जा रहा है ।

लेखा परीक्षण

20. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षक केन्द्रीय मुंबई द्वारा, नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 2021-2022 के खातों का लेखा परीक्षण किया गया है।

सतर्कता इकाई की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

21. आयुक्त महोदय के सीधे नियंत्रण में सतर्कता इकाई कार्यशील है। वर्ष के दौरान इस इकाई के पास किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। अतः किए गए दावे यथासमय निपटा दिए जाते हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) मामले

22. आरटीआई आवेदनों का निर्धारित समय अवधि के भीतर निस्तारण किजा जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान का कोई आवेदन प्रलंबित नहीं है।

धन्यवाद ज्ञापन

23. मंडल ने, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, नौवहन महानिदेशालय, नाविक पालों, निदेशक, नाविक नियोजन कार्यालयों, जिलाधियों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा नियोक्ताओं एवं नाविकों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार प्रदर्शित किया तथा उनके सहयोग की प्रशंसा की।

आयुक्त भविष्य निधि कार्यालय ने भविष्य निधि - धनराशियों के त्वरित वितरण एवं भुगतान सहित सभी दिशाओं में लगातार सफलता अर्जित की है। वर्ष के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए न्यासी मंडल ने कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रशंसा की है।



सुरेंद्र कुमार
सचिव,
न्यासीमंडल
नाविक भविष्य निधि, मुंबई

परिशिष्ट
(अनुच्छेद 4)

नाविक भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या

क्रम संख्या	श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	एस.सी. कर्मचारी	एस.टी. कर्मचारी	ओ.बी.सी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्रुप 'ए'	2	1	-	-	-
2	ग्रुप 'बी' (नॉन गजेटेड)	1	-	-	-	-
3	ग्रुप 'सी'	28	10	1	-	2
4	ग्रुप 'डी'	5	2	1	-	-
	कुल	36	13	2	-	2

अनुबंध - 1
(अनुच्छेद 8.1 का संदर्भ)

31.03.2022 को कुल निवेशों का सारांश

क्रम संख्या	निवेश पध्दति (1)	अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) (2)	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू) (3)
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	2,041,090,000.00	2,040,873,194.43
2.	राज्य सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत की गई प्रतिभूतियाँ	10,592,820,000.00	10,690,190,649.77
3.	पी एस यू / एफ आय बाँड्स	7,311,830,100.00	7,332,722,672.29
4.	विशेष जमा	3,419,353,488.64	3,419,353,488.64
5.	दीर्घ काल के टीडीआर	124,158,000.00	124,158,000.00
6.	मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	40,000,000.00	40,000,000.00
7.	म्युचुअल फंड्स	1,669,840,944.86	1,669,840,944.86
	कुल योग	25,199,092,533.50	25,317,138,949.99

अनुबंध -2
(अनुच्छेद 8.2 का संदर्भ)

भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किए गए दावों का विवरण

वर्ष (1)	भविष्य-निधि अंशदान की प्राप्त धनराशि (2) ₹	क्षतिपूर्ति की वसूल की गई कुल धनराशि (3) ₹	दावों का भुगतान अंतिम / अप्रतिदेय निकासियाँ (4) ₹	स्तंभ (2) से प्राप्त भ.नि. पर दावों का प्रतिशत (5) %
2017-18	1,225,543,809.29	1,545,816.00	741,298,676.09	60.49 %
2018-19	1,331,191,296.00	6,513,137.00	795,027,997.24	59.72%
2019-20	1,441,953,570.48	5,497,652.39	700,009,551.48	48.55%
2020-21	1,560,931,698.19	3,191,942.15	275,080,913.43	17.62%
2021-22	1,63,93,10,230.57	3,082,953.46	698,542,892.47	42.61 %

अनुबंध -3
(संदर्भ अनुच्छेद 9)

निवेशित राशियों का सारांश, कुल निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज की स्थिति व आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्ष का विवरण.

वर्ष (1)	अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) (2) ₹	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू) (3) ₹	अर्जित ब्याज (4) ₹
2017-18	16,156,865,980.44	16,325,285,376.24	1,307,169,079.44
2018-19	18,067,199,910.44	18,226,551,463.15	1,434,786,442.17
2019-20	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85	1,50,89,02,068.17 #
2020-21	23,136,038,207.77	23,011,167,093.01	1,811,340,206.39 #
2021-22	25,199,092,533.50	25,317,138,949.99	1,796,085,787.01 #

प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

* पिछले साल का प्रोद्भूत ब्याज को छोड़कर

अनुबंध -4
(संदर्भ अनुच्छेद 17)

वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 की अवधि का
भविष्य निधि अंशदान, प्रशासनिक प्रभार की प्राप्तियाँ और व्यय का वर्षवार दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	कुल अंशदान पर प्रशासनिक प्रभार की दर	भविष्य निधि अंशदान (अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं) ₹	प्रशासनिक प्रभार (अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं) ₹	व्यय ₹	प्रशासनिक प्रभार की निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज ₹
2017 - 18	5%	1,225,543,809.29	42,067,303.50	37,299,318.42	6,279,917.63 #
2018 - 19	5%	1,331,191,296.00	46,132,678.55	37,497,904.07	6,058,403.69 #
2019 - 20	5%	1,441,953,570.48	50,999,572.73	41,675,057.43	6,571,648.58 #
2020 - 21	5%	1,560,931,698.19	56,388,315.93	57,187,001.02	5,444,293.20 #
2021 - 22	5%	1,63,93,10,230.57	59,512,195.41	57,422,994.50	5,784,726.66 #

प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन
की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सार

I परिसम्पत्तियों की श्रेणी

लागत मूल्य के अनुसार 31.03.2022
को किताबी मूल्य (मूल्य हास अस्वीकृत)

नाविक भविष्य निधि लेखा :	₹
(1) भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	2,040,873,194.43
(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियाँ	10,690,190,649.77
(3) पी.एस.यू. / बॉन्ड	7,332,722,672.29
(4) विशेष जमा	3,419,353,488.64
(5) दीर्घ काल के टीडीआर	124,158,000.00
(6) मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	40,000,000.00
(7) म्युचुअल फंड्स	1,669,840,944.86
कुल योग	25,317,138,949.99

२. बैंक शेष

(1) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई	—
(2) केनरा बैंक, मुंबई	88,909,077.19
(3) भारतीय स्टेट बैंक सीएजी शाखा (निवेश खाता)	30,505,078.91

II प्रशासन खाता :

(1) निवेशित राशि	99,728,138.54
(2) बैंक, शेष	
(क) भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासन खाता), मुंबई	50,558.28
(ख) बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	24,106.64
(ग) केनरा बैंक, मुंबई	6,364,990.22
(3) हाथ में नकद शेष	616.25

III परिसम्पत्तियों का मूल्य : *

(1) कार्यालय भवन	71,304.71
(2) फर्निचर, फिक्सचर इत्यादि	1,60,786.22
(3) कार्यालय उपकरण	4,35,028.97
(4) संगणक	3,38,508.83
(5) कानूनी सॉफ्टवेअर	25,848.80
(6) कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान	8,100,000.00
(7) प्रोजेक्टर के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान - वर्ष 2019-2020	369,338.00
(8) 2019-20 में कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान का प्रावधान	2,947,117.00
(9) 2020-21 में कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान का प्रावधान	593,457.00
(10) 2021-22 में कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान का प्रावधान	9,16,416.00
(11) नए सॉफ्टवेअर के विकास के लिए एनआईसीएसआई को अग्रिम भुगतान	360,000.00
(12) 2020-21 में नए सॉफ्टवेअर के विकास के लिए एनआईसीएसआई को अग्रिम भुगतान का प्रावधान	540,000.00

* परिसंपत्तियों का मूल्य वस्तुओं की डब्ल्यू.डी.वी. की लागत पर आधारित है ।

ह/-

सुरेन्द्र कुमार

आयुक्त,

नाविक भविष्य निधि, मुंबई

NAVIK BHAVISHYA NIDHI



56th
R
E
P
O
R
T

**SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANISATION
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS)**

**56TH (FIFTY SIXTH)
ANNUAL REPORT
2021 - 2022**

**ON THE WORKING OF
SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966**

**OFFICE OF
THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND COMMISSIONER
KRUPANIDHI, 3RD FLOOR, 9, WALCHAND HIRACHAND MARG,
BALLARD ESTATE, MUMBAI - 400 001.**

FAX - 022-2261 62 02

PHONE - 022-22616925, 022-22662044

E-mail Address : spfo-commr@spfo.gov.in

Web site : www.spfo.gov.in

C O N T E N T S

Chapter No.		Page Nos
I.	Contents	01
II.	List of Trustees	02
III.	Introduction	03
IV.	Board of Trustees	03
V.	Administration	03
VI.	Coverage	03
VII.	Year at a Glance	04
VIII.	Provident Fund Contributions	04 - 05
IX.	Investments	05
X.	Interest	05 - 06
XI.	Remittance/Recoveries of Provident Fund Contributions (Arrears)	06
XII.	Damages	06
XIII.	Final Withdrawals	07
XIV.	Non-refundable Withdrawals	07
XV.	Forfeiture	07
XVI.	Transfers and Exemptions	08
XVII.	Computerisation of part Accounts/Unposted Items	08
XVIII.	Administration Account	08
XIX.	Assets of the Organisation	08
XX.	Report on progressive use of RAJBHASHA	08
XXI.	Audit	09
XXII.	Activities and Achievements of the Vigilance Units	09
XXIII.	Right to Information (RTI) Cases	09
XXIV.	Acknowledgements	09
Appendix	Total number of Employees in the Seamen's Provident Fund Organization	10
Annexure 1.	Summary of Aggregate Investments	11
Annexure 2.	Summary of Collection of Provident Fund, Damages and Claims Paid	12
Annexure 3.	Position of Investments and Interest earned	13
Annexure 4.	Collection of Provident Fund/Administrative Charges and Expenditure	14
Annexure 5.	Classified Summary of the Assets of the Organization	15

**SEAMEN'S PROVIDENT FUND
BOARD OF TRUSTEES
2021-2022**

CHAIRMAN **Shri Amitabh Kumar, IRS**
Director, General of Shipping

Government Representatives:

1. Deputy Financial Advisor or Director (Finance) on Deputy Secretary
Ministry of Ports, Shipping and Waterways, New Delhi
2. Deputy Director General of Shipping (Crew), Mumbai
(Dealing with Seamen's Welfare)
3. Additional Central Provident Fund Commissioner
EPFO, or his Nominee

Employers' (Shipowners) Representatives:

1. **Capt. Mahendra Bhasin**
Maritime Association of Ship owner
Ship Managers and Agents', (MASSA) Mumbai.
2. **Capt. Rajesh Tandon**
Foreign Owners Representatives and
Ship Managers Association, (FOSMA), Mumbai.
3. **Shri Manish Verma**
Indian National Shipowners' Association, (INSA)
Mumbai

Seamen's Representatives :

1. **Shri Abdulgani Y. Serang,**
General Secretary-cum-Treasurer
National Union of Seafarers of India, Mumbai.
2. **Shri S. Kalaikovan**
National Union of Seafarers of India, Chennai
3. **Shri Amar Singh Thakur**
The Maritime Union of India, Mumbai

SECRETARY : 1. **Shri Surendra Kumar** (w.e.f. 14.06.2019)
Commissioner,
Seamen's Provident Fund Organisation.

OFFICE :

"Krupanidhi", 3rd Floor, 9, Walchand Hirachand Marg,
Ballard Estate, Mumbai - 400 001.

Telephones :- 022-2262 0402 (Commissioner - Personal)
2261 6925, 22662044 (Office)

Fax: 022-22616202

Web site : www.spfo.gov.in

E-mail Address : spfo-commr@spfo.gov.in

FIFTY SIXTH ANNUAL REPORT

ON THE WORKING OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME FOR THE YEAR 2021-2022

The Chairman and Members of the Board of Trustees, Seamen's Provident Fund have the pleasure in presenting this 56th Annual Report on the working of the Seamen's Provident Fund Scheme for the year 2021-2022.

INTRODUCTION

2. The Seamen's Provident Fund Scheme framed under the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966) was introduced retrospectively w. e. f. 1st July, 1964 to provide for the institution of a Provident Fund for all Seamen, in view of the obvious need to provide old age retirement benefit to the seamen members engaged in the Shipping Industry (Merchant Navy) and their family members in the event of death. To administer the Provident Fund Scheme, the Office of the Seamen's Provident Fund Commissioner was established on the 9th July, 1966.

BOARD OF TRUSTEES

3. The tripartite Board of Trustees consisting of the Government appointed Chairman, three nominees of the Central Government, three representatives each of the Employers and Employees is constituted under Section 5 (1) of the Seamen's Provident Fund Act, 1966. The Director General of Shipping is the Ex-Officio Chairman of the Board of Trustees and the Seamen's Provident Fund Commissioner who is Chief Executive Officer, is the Secretary to the Board.

ADMINISTRATION

4. The Commissioner is assisted by Administrative-cum-Accounts Officer and other members of the Staff. Details of the staff given in appendix.
- 4.1 The Shipping Master, Kolkata and his staff continued to do liaison work of the Seamen's Provident Fund Organization at Kolkata for catering to the needs of Kolkata registered seafarers. Upto date information is provided to the member seafarers through the Computer Link established between Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai and Kolkata and personnel has been posted at Kolkata to ensure uninterrupted service.

COVERAGE

5. During the year under review, the Seamen's Provident Fund Scheme covered about 103,446 accounts.

YEAR AT A GLANCE

6. The following synopsis presents the performance of the Organization during the year 2021-2022 and its preceding year.

Sr. No.	Particulars	2021-22 (Rs.)	2020-21 (Rs.)
6.1. (1)	Seafarers' Member A/cs	103,446	97,334
(2)	Provident Fund Contributions received	163.93	156.09
(3)	Progressive total balance in the Provident Fund A/c (excluding Forfeiture A/c) (Investment PF + Interest Suspense + RCH)	2586.13	2355.19
6.2 (1)	Administrative charges Received	5.95	5.63
(2)	Rate of Administrative Charges	5%	5%
(3)	Other receipts including Interest (Admin A/c)	0.59	0.59
(4)	Grant from Government	NIL	NIL
(5)	Total Income	6.55	6.24
(6)	Administrative expenditure incurred	5.74	5.72
(7)	Surplus	0.81	0.53
6.3	Final Withdrawals	-	-
	(1) No. of cases paid	1120	377
	(2) Amount Paid	66.14	25.47
6.4	Non Refundable Withdrawals: (Under Para 58A,B,C&E of the Scheme)	2021-22 (Rs.)	2020-21 (Rs.)
	(1) No. of cases	443	258
	(2) Amount paid	3.72	2.03
6.5	Total cases paid of all types from P.F. A/c. (6.3 & 6.4 above) Amount Paid	1563 69.86	635 27.51
6.6	Amount invested/reinvested during the year (Provident Fund A/c.)	443.45	390.93
6.7	Interest earned on investment during the year (Decrease) / increase in interest	179.61* (-)-1.52 -0.84%	181.13 (+)-30.24 20%
6.8	Interest credited to members Accounts	134.22 5.75% #	145.55 7%

* Includes accrued interest

** Accrued interest for previous year excluded

An amount of Rs.32.74 Cr. is set off towards recoupment of investments turning bad in case of M/s DHFL & IL& FS

PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS

7. The receipts of Provident Fund Contributions for the preceding 5 years and the year under review are shown below:

YEAR	PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS RUPEES
2017-18	1,225,543,809.29
2018-19	1,331,191,296.00
2019-20	1,441,953,570.48
2020-21	1,560,931,698.19
2021-22	1,639,310,230.57

7.1 As on 31.03.2021 the total amount held in the Provident Fund Account is Rs. 2591.61 crores, the break-up of which is given below:-

Sr. No.	Head of Account	Amount (Rs.)	Percentage Total (Approx.)
1.	Provident Fund Contributions (including interest)	25,272,226,165.85	97.52
2.	Balance in the interest Suspense Account after crediting the interest to the Member's Account.	587,967,146.02	2.27
3.	Balance in Forfeiture Account	54,813,016.52	0.21
4.	Provident Fund Suspense Account (Returned Cheques/ Money orders)	1,122,652.30	0.00
	TOTAL	25,916,128,980.69	100

INVESTMENTS

8. The Provident Fund amounts are invested as per pattern of investments prescribed by the Government of India from time to time. Investments/re-investments made during the year 2021-2022, out of the contributions and interest proceeds were ₹ 4,434,473,536.44.

Sr.No.	Details	Book Value
1.	Central Government Securities	-
2.	State Government (SDL)	2,006,016,897.27
3.	PSU / FI Bonds	1,793,612,413.44
4.	Money Market Instruments	4,00,00,000.00
5.	Mutual Fund / Equity	59,48,44,225.73
	TOTAL	4,434,473,536.44

8.1 From the aggregate balance amount of Rs. 2591.61 crores mentioned in Para 7.1 of the Report, a sum of Rs. 2531.71 crores stood invested as per pattern of investment prescribed by the Government from time to time as shown in Annexure 1. An amount of Rs. 119,414,156.10 was kept in the Savings Bank Account (Provident Fund). Accrued interest receivable on investment is Rs. 628,340,229.53. A sum of Rs. 13,835.81 is lying in Saving bank of Forfeiture Account. Besides, a sum of Rs. 51,380,434.16 is kept invested from Forfeiture Account and accrued Interest receivable is Rs. 3,418,746.55

8.2 A summary of collection of Provident Fund, damages and claims settled during the past 5 years and the year under review is shown in **Annexure-2**.

INTEREST

9. The interest earned (including accrued interest) during the year on the total investments amounted to Rs. 1,796,085,787.01 as against Rs. 1,811,340,206.39 during the previous year. The details are at **Annexure - 3**.

9.1 As provided under Para 51 of the Scheme, the rate of interest to be credited to Member's Account is determined by the Government in consultation with the Board and credited to the individual Member's Account. The interest rate for the year 2021-2022 was 5.75% p.a

9.2 A sum of Rs. 587,967,146.02 is the balance in the Interest Suspense Account after crediting Rs.1,342,166,980.00 to the members account's for the year 2021-2022 and providing interest on investment on accrual basis

9.3 The rates of interest allowed to the Members for the preceding five years and the year under review are given below:-

Year	Rate of Interest
2017 -18	8.50%
2018-19	8.25%
2019-20	7.25%
2020-21	7.00%
2021-22	5.75%

REMITTANCE/RECOVERIES OF PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS (ARREARS).

10. Most of the employers continued to remit Provident Fund Contributions within the specified period.

10.1 A systematic careful scrutiny and comparison of Provident Fund returns continued to be made manually and wherever employers failed to remit the Contributions within the stipulated time, their attention was drawn to the lapse on their part by issuing show cause notices. Where the employers failed to remit the contributions even after the issue of show cause notices, action is being taken under Section 9 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 for recovery of dues.

10.2 Besides the above recoveries, an amount of Rs.346,456.27 was outstanding from various Shipping Companies which have gone into liquidation. As per procedure, the claims were filed with the respective Official Liquidators for recovery of these amounts.

DAMAGES

11. An amount of Rs. 30,82,953.46 recovered as Damages for delayed payment of Provident Fund Contributions and Administrative Charges during the year. The position of recovery of Damages for the preceding 5 years together with the year under review is given below: -

YEAR	DAMAGES RECOVERED (Rs.)
2017 - 2018	1,545,816.00
2018 - 2019	6,513,137.00
2019 - 2020	5,497,652.39
2020 - 2021	3,191,942.15
2021 - 2022	3,082,953.46

FINAL WITHDRAWAL

12. A sum of Rs. 69.86 crores was paid to outgoing members. The total number of 1563 accounts closed and amount paid to the members seafarers during the last five years and the year under review are as under: -

YEAR	NO. OF CASES	AMOUNT PAID (Rs.)
2017 - 2018	1288	717,880,076.09
2018 - 2019	1260	761,630,097.24
2019 - 2020	1498	677,847,795.48
2020 - 2021	377	254,721,715.43
2021 - 2022	1563	698,542,892.47

- 12.1 All the payment of Final withdrawal and NRW are remitted through RTGS / NEFT by the banker i.e. Canara bank wherein if error is found in the seafarers bank details account the same is rejected by the bank under intimation to this office and accordingly, after calling the bank details from the seafarer the amount is remitted again. However, the payment of old RCH cases (Return cheque) are being processed after calling the details from the seafarer and their families.

NON – REFUNDABLE WITHDRAWAL/FINAL WITHDRAWAL

13. The Organization has geared up its machinery to ensure expeditious payment of Final Withdrawal claims and Non-Refundable Withdrawal claims to the members and / or to the next of kins of the deceased members. All the Final withdrawal / NRW application form, advance stamped receipt, mandate form and check list (i.e. list of documents required) along with the application form. Accordingly, all the forms are uploaded on the spfo website which can be downloaded from the website for claiming the amount. However, in spite of the best efforts of the Organization, delay occurs in cases where nominations do not exist and/or where legal heirship reports are required from the respective revenue/police authorities or where the relevant documents are yet to be received from the seamen members or legal heirs of the deceased seamen. Seamen's Provident Fund Organization has started all remittances through RTGS/NEFT in place of cheque for instance credit in the members accounts.
- 13.1 The seamen reporting to this Office are personally informed about the website of SPFO along with their Login Id number and password for verification of their records.
- 13.2 The SPFO had successfully commissioned web server. So the seaman can view their PF account (view only) by visiting "http://spfo.gov.in/ ". All the FW/NRW (living seafarers) claims are being settled through online system in new software.

FORFEITURE

14. In the Forfeiture Account total amount of Rs. 51,380,434.16 was kept invested and sum of Rs. 13,835.81 is lying in Saving Account.
- 14.1 The amount forfeited during the preceding five years and the year under report is given below:-

YEAR	Amount Forfeited Rs
2017 - 2018	-
2018 - 2019	40,230.00
2019 - 2020	6,303.00
2020 - 2021	17,707.00
2021 - 2022	32,155.75

TRANSFERS AND EXEMPTIONS

15. No cases for transfer of accounts from this Organization to the new Employers of the seamen members concerned were received during the year under review under Section 19 of Seamen's Provident Fund Act, 1966. No exemption was allowed to any employer under Section 20 (1) of the Seamen's Provident Fund Act, 1966.

COMPUTERISATION OF PART ACCOUNTS / UNPOSTED ITEMS

16. The printing of members Account Slips for the year 2021-2022 is under process. However, the seafarers can view this PF statement by visiting SPFO website i.e. www.spfo.gov.in.

- 16.1 The progress made in clearance of un-posted contributions for the year was as under: -

	No. of Entries	Amount Rs.
Balance as per Last report	12959	201,894,086.02
Add: During the year 2021-2022	8646	132,345,759.25
	21605	334,239,845.27
Less : Cleared during the year	3750	42,748,108.96
Balance	17855	291,491,736.31

ADMINISTRATION ACCOUNT

17. The expenditure towards Administration of the Scheme is met from the 'Administrative Charges' levied at the rate of 5% on matching (Employer + Employee's share) Provident Fund Contributions collected from the Employers. The receipts of Administrative Charges and Expenditure incurred for the five years are given in **Annexure- 4**.
- 17.1. An amount of Rs. 106,168,409.93 stood as balance in the Administrative Charge Account at the end of the year. Periodical investments from the balance in Administration Account are made and a sum of Rs. 99,728,138.54 stands invested. A sum of Rs. 6,43,96,55.14 as on 31.03.2022 was lying in Saving Bank Accounts and a sum of Rs. 616.25 cash in hand.
- 17.2 As on 31.03.2022, the investment of Pension / Gratuity Fund was Rs. 173,100,000.00 lying invested in Securities and a sum of Rs. 25,326.24 is lying in Saving Bank Account.

ASSETS OF THE ORGANISATION

18. A classified summary of the assets of the Organization as required under Para 44 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 for the year under review is given in **Annexure - 5**.

REPORT ON PROGRESSIVE USE OF RAJBHASHA

- 19 As provided under Department of Official Language O.M.No.1/24001/976-OL (A-1) dated 07/02/1977, the check points have been identified for annual programme and action has been taken to achieve physical target of making progress in the use of 'Rajbhasha' by this Office. All type of forms are translated in Hindi and are printed bilingually for day to day use. More than 80% employees are trained so far and letters received in Hindi are strictly replied in Hindi. 'Hindi Day' was also celebrated to promulgate Hindi. Hindi software Unicode has been activated in the computers and entire official work is done on it.

AUDIT

20. The Principal Director of Audit, Central Mumbai has been requested to conduct the Audit of Annual Accounts of the Organization for the year 2021 – 2022.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE UNITS.

21. A vigilance unit has been functioning under the direct control of the Commissioner. During the year under review, no complaint of any nature was received by the unit, which leaves no room for delays in disposal of claims.

RIGHT TO INFORMTION (RTI) CASES

22. RTI application are being disposed off within the stipulated time and no application pending during the F.Y 2021-22

ACKNOWLEDGEMENTS

23. The Board places on record its appreciation for the assistance and co-operation received from the Ministry of Port, Shipping and Waterways, New Delhi, Directorate General of Shipping, Shipping Masters, Directors of Seamen's Employment Offices, District Collectors, Police Commissioners, Superintendents of Police, the Organizations of the Employers and Representatives of Seafarers'.

The Office of the Commissioner, Seamen's Provident Fund has continued to achieve considerable success in all directions, speedy payments and collections of Provident Fund moneys. The Board also places on record its appreciation for the dedicated services rendered by the Officers and Staff of the Organization at all levels during the year.



(Surendra Kumar)
Secretary,
Board of Trustees,
Seamen's Provident Fund,
Mumbai.

**Appendix
(Para 4)**

**TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES IN THE SEAMEN'S
PROVIDENT FUND ORGANIZATION**

Sr. No.	Group	Total Strength	Total No. of Employees in position	SC Employees	ST Employees	OBC Employees
1	2	3	4	5	6	7
1	'A'	2	1	-	-	-
2	'B' (non-Gazetted)	1	-	-	-	-
3	'C'	28	10	1	-	2
4	'D'	5	2	1	-	
Total		36	13	2	-	2

SUMMARY OF AGGREGATE INVESTMENTS AS ON 31.03.2022

Pattern of Investment	Face Value	Book Value
1. Central Govt. Securities	2,041,090,000.00	2,040,873,194.43
2. State Govt./State Guaranteed Securities	10,592,820,000.00	10,690,190,649.77
3. PSU Bonds	7,311,830,100.00	7,332,722,672.29
4. Special Deposits	3,419,353,488.64	3,419,353,488.64
5. Long Term TDR	124,158,000.00	124,158,000.00
6. Money Market Instruments	40,000,000.00	40,000,000.00
7. Mutual Fund	1,669,840,944.86	1,669,840,944.86
Grand Total	25,199,092,533.50	25,317,138,949.99

Annexure – 2
(Para 8.2)

SUMMARY OF COLLECTION OF PROVIDENT FUND, DAMAGES AND CLAIMS PAID.

Year	Total Amount of PF Cont Rece.	Total amount of Damages Recovered	Claims paid (F.W./N.R.W)	Claims Percentage of P.F. Recd in Col, (2)
1.	2.	3.	4.	5.
	Rs.	Rs.	Rs.	
2017-2018	1,225,543,809.29	1,545,816.00	741,298,676.09	60.49 %
2018-2019	1,331,191,296.00	6,513,137.00	795,027,997.24	59.72%
2019-2020	1,441,953,570.48	5,497,652.39	700,009,551.48	48.55%
2020-2021	1,560,931,698.19	3,191,942.15	275,080,913.43	17.62%
2021-2022	1,63,93,10,230.57	3,082,953.46	698,542,892.47	42.61%

**Annexure -3
(Para 9)**

**POSITIONS OF INVESTMENTS AND INTEREST EARNED FROM THE TOTAL
INVESTMENTS DURING THE PAST 5 YEARS AND THE YEAR UNDER REVIEW.**

Year	Face Value	Book Value	Interest Earned
1.	2.	3.	4.
	Rs.	Rs.	Rs.
2017-2018	16,156,865,980.44	16,325,285,376.24	1,307,169,079.44
2018-2019	18,067,199,910.44	18,226,551,463.15	1,434,786,442.17
2019-2020	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85	1,508,902,068.17 #
2020-2021	23,136,038,207.77	23,011,167,093.01	1,811,340,206.39 #
2021-2022	25,199,092,533.50	25,317,138,949.99	1,796,085,787.01 #

including accrued interest

* Excluding Last year accrued Interest

**Annexure - 4
(Para -17)**

**STATEMENT SHOWING YEAR WISE RECEIPTS OF PROVIDENT FUND
CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIVE CHARGES AND EXPENDITURE
FROM 2017 - 2018 TO 2021 - 2022**

Year	Rate of Administrative charges on the total Contribution	Provident Fund Contribution (includes Voluntary /Ex-gratia and Pension annuity)	Administrative Charges on matching P.F. Contribution	Expenditure	Interest earned on investment of Administrative Charges
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
2017-2018	5%	1,225,543,809.29	42,067,303.50	37,299,318.42	6,279,917.63#
2018-2019	5%	1,331,191,296.00	46,132,678.55	37,497,904.07	6,058,403.69#
2019-2020	5%	1,441,953,570.48	50,999,572.73	41,675,057.43	6,571,648.58#
2020-2021	5%	1,560,931,698.19	56,388,315.93	57,187,001.07	5,444,293.20#
2021-2022	5%	1,63,93,10,230.57	59,512,195.41	57,422,994.50	57,84,726.66#

Includes accrued interest

**CLASSIFIED SUMMARY OF THE ASSETS OF THE SEAMEN'S
PROVIDENT FUND ORGANISATION FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2022**

	Class of Assets	Book value as on 31st March, 2022 as per cost price (depreciation disallowed)
1.	Seamen's Provident Fund Account :	Rs.
	1. Government of India Securities	2,040,873,194.43
	2. State Government / State Guaranteed Securities	10,690,190,649.77
	3. PSU bonds	7,332,722,672.29
	4. Special Deposits	3,419,353,488.64
	5. Long Term TDR	124,158,000.00
	6. Money Market Instruments	40,000,000.00
	7. Mutual Funds	1,669,840,944.86
	TOTAL	25,317,138,949.99
2.	Cash at Bank	
I.	i) State Bank of India, Mumbai	--
	ii) Canara Bank	88,909,077.19
	iii) State Bank of India CAG Branch (Investment A/C)	30,505,078.91
II.	Administration Account :	
	Amount invested	99,728,138.54
	Cast at Bank	
	State Bank of India.(Admin A/C) Mumbai	50,558.28
	Bank of India	24,106.64
	Canara Bank	6,364,990.22
	Cash in hand	616.25
III.	Value of Assets :	
	1. Office Premises	71,304.71
	2. Furniture and Fixtures	160,786.22
	3. Office Equipment's	435,028.97
	4. Computer	338,508.83
	5. Legal Software	25,848.80
	6. Advance payment to CPWD for repair of office premises	8,100,000.00
	7. Advance payment to CPWD for Projector in F. Y. 2019-20	369,338.00
	8. Advance for payment of CPWD for repair of office premises 2019-20	2,947,117.00
	9. Advance for payment of CPWD for repair of office premises in 2020-21	593,457.00
	10. Advance for payment of CPWD for repair of office premises in 2021-22	916,416.00
	11. Advance payment to NICS I for development of new software	360,000.00
	12. Advance payment to NICS I for development of new software 2020-21	540,000.00

The value of assets is based on the cost of WDV of the Articles.

Sd/
(Surendra Kumar),
Commissioner
Seamen's Provident Fund,
Mumbai

नाविक भविष्य निधि



नाविक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

छपनवाँ वार्षिक लेखा-जोखा 2021-22

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9, वालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई -400 001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं
(नॉन - प्रॉफिट संगठनों और समान संस्था)
के लिए
वित्तीय विवरण

विषय

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सीएजी).....	6 - 10
तुलन पत्र	11 - 12
आय और व्यय लेखा.....	13 - 14
उपरोक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ	15 - 41
प्राप्ति और भुगतान का विवरण	42 - 43

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के लेखा-जोखा पर
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की अलग ऑडिट रिपोर्ट**

टिप्पणी	उत्तर
<p>1. हमने नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई (एसपीएफओ) की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की संलग्न बैलेंस शीट का ऑडिट किया है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की आय और व्यय के खाते को नाविक भविष्य निधि योजना 1966 के पैरा 48 के साथ अध्ययन किया है, नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में अधिसूचित किया गया था कि इसके वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है और हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति, लेखांकन के मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन पद्धति पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की टिप्पणियां शामिल हैं। अधिनियमों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर ऑडिट अवलोकन, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्ट / कैग की ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा अलग से रिपोर्ट की जाती है।</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>3. हमने सामान्य तौर पर भारत में अपनाए गए लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम योजना बनाएँ और युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करते हुए ऑडिट करें चाहे वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हो। ऑडिट में, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतियों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों और उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों का भी मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा ऐसा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है।</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>4. हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट करते हैं कि :-</p> <p>i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास में हमारे ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।</p> <p>ii) इस रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई बैलेंस शीट और इससे होने वाली आय और व्यय खातों को नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 47 के तहत न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।</p> <p>iii) हमारी राय में नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा-47 के तहत आवश्यक वही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित पुस्तकों के माध्यम से रख-रखाव किया गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों का हमारी जांच से स्पष्ट होता है।</p> <p>iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि :</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>ए बैलेंस शीट ए.1 निर्धारित / अक्षय निधि (अनुसूची -3) रु. 2610.24 करोड़ ए.1.1 नाविक भविष्य निधि कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि (ग्रेच्युटी फंड) रु. 18.64 करोड़</p> <p>बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च, 2022 को पेंशन निधि, ग्रेच्युटी फंड और छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता रु. 20.91 करोड़ थी। जबकि 31 मार्च, 2022 को शेष निधि रु. 18.64 करोड़ थी जो वास्तविक मांग निधि से रु. 2.27 करोड़ कम थी।</p> <p>इसके परिणाम स्वरूप निर्धारित / अक्षय निधि (नाविक भविष्य निधि कर्मचारी पेंशन तथा ग्रेच्युटी फंड) स्थापना व्यय को कम करके दिखाया गया है और इसके अनुसार अधिशेष को रु. 2.27 करोड़ से अधिक बताया गया है। इस मुद्दे को वर्ष 2012-13 से अलग ऑडिट रिपोर्ट में उठाया जा रहा है।</p>	<p>इस मुद्दे को वर्ष 2012-13 से एसएआर में उठाया जा रहा है, उस समय नाविक भविष्य निधि संगठन के पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में 1.67 करोड़ रुपये शेष थे। उस समय ना.भ.नि.सं. में बीमांकिक मूल्यांकन कर्ता को नियुक्त नहीं हुई थी, इसके बाद मेसर्स ग्लोबल रिस्क कंसल्टेंट को वर्ष 2016-2017 में बीमांकिक मूल्यांकन कर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।</p> <p>बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट वित्त वर्ष 2015-2016 के अनुसार ना.भ.नि.सं. के अधिकारियों / कर्मचारियों को देयता राशि रुपये 16.60 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए उपलब्ध फंड राशि रुपये 5.82 करोड़ थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त वर्ष 2015-2016 को बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी खाते में संचित निधि की तुलना में रुपये 10.78 करोड़ की राशि कम थी।</p>

टिप्पणी	उत्तर																																	
<p>ए-1.2 ब्याज उचित खाता : रु. 58.80 करोड़ नाविक भविष्य निधि मुख्य खाता : रु. 2526.05 करोड़ इसमें बिना इंदराज (अन-पोस्टेड) मदों से संबन्धित नाविकों को देय ब्याज राशि रु. 6.43 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है। प्रत्येक नाविक भविष्य निधि अंशदान की तिथि से अपने अंशदान पर ब्याज पाने का हकदार है। परंतु, बिना इंदराज मदों के संबंध में इंदराज नहीं की गई मदों का समाशोधन करते समय नाविकों के कुल ब्याज की गणना सिस्टम में की जाती है जो एक वर्ष या एक वर्ष के अधिक हो सकता है। ये बिना इंदराज (अन-पोस्टेड) की गई मदें वर्ष 1998-99 से क्लियरेंस के लिए पड़ी हुई हैं।</p>	<p>इस संबंध में दिनांक 26.05.2017 के पत्र सं 511/0006/2017 के अंतर्गत रु. 11.23 करोड़ की एक मुश्त अनुदान राशि के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। चूंकि मंत्रालय द्वारा उपरोक्त अनुरोध को संसाधित करने में देरी हुई थी, न्यासी बोर्ड ने सक्रिय रूप से कार्य करते हुए यह विनिश्चय किया कि अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा प्रशासनिक प्रभारों से उपलब्ध निधियों में घाटे के अंतर को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।</p> <p>अंतरित की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :</p> <table border="1"> <tr><td>2012-2013</td><td>-</td><td>0.35 करोड़</td></tr> <tr><td>2013-2014</td><td>-</td><td>0.35 करोड़</td></tr> <tr><td>2014-2015</td><td>-</td><td>0.55 करोड़</td></tr> <tr><td>2015-2016</td><td>-</td><td>1.10 करोड़</td></tr> <tr><td>2016-2017</td><td>-</td><td>0.98 करोड़</td></tr> <tr><td>2017-2018</td><td>-</td><td>1.00 करोड़</td></tr> <tr><td>2018-2019</td><td>-</td><td>1.32 करोड़</td></tr> <tr><td>2019-2020</td><td>-</td><td>1.525 करोड़</td></tr> <tr><td>2020-2021</td><td>-</td><td>2.92 करोड़</td></tr> <tr><td>2021-2022</td><td>-</td><td>2.94 करोड़</td></tr> <tr><td>कुल</td><td>-</td><td>13.04 करोड़</td></tr> </table> <p>वर्तमान में हमने रु. 13.04 करोड़ के अंतर को कम किया है।</p> <p>वित्त वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर कर्मचारी पेंशन और ग्रेज्युटी फंड में रुपये 18.64 करोड़ की राशि शेष थी। पिछले कुछ वर्षों में ना.भ.नि.सं. ने वित्त वर्ष 2015-16 के रु. 16.60 करोड़ के घाटे को वित्त वर्ष 2021-22 में रु. 2.27 करोड़ तक लाने में सफलता प्राप्त की है।</p> <p>वित्त वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधानों के अनुसार रु. 1.67 करोड़ की राशि पहले ही अंतरित की जा चुकी है और वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान से स्टाफ पेंशन और ग्रेज्युटी फंड के लिए प्रस्तावित 3.06 करोड़ की राशि की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुमोदन भेजा गया है।</p> <p>वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान के प्रस्ताव के अनुमोदन के अर्धधोनी वित्त वर्ष 2022-23 में स्टाफ पेंशन और ग्रेज्युटी खाते में रु. 3.06 करोड़ की पर्याप्त राशि अंतरित करने का आश्वासन दिया जाता है।</p> <p>एसपीएफओ सॉफ्टवेयर में (अन-पोस्टेड) की गई मदों पर अलग से ब्याज की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सही ब्याज राशि पर पहुंचना संभव नहीं है। तथापि, ब्याज की अधिक निकासी को रोकने और भविष्य में एक स्थायी स्तर ब्याज दर को बनाए रखने के लिए ब्याज सस्पेंस खाते में रिजर्व के रूप में थोड़ा लचीलापन रखा गया है। यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कुल रु. 58.80 करोड़ की संचित राशि ब्याज सस्पेंस खाते में जमा है।</p>	2012-2013	-	0.35 करोड़	2013-2014	-	0.35 करोड़	2014-2015	-	0.55 करोड़	2015-2016	-	1.10 करोड़	2016-2017	-	0.98 करोड़	2017-2018	-	1.00 करोड़	2018-2019	-	1.32 करोड़	2019-2020	-	1.525 करोड़	2020-2021	-	2.92 करोड़	2021-2022	-	2.94 करोड़	कुल	-	13.04 करोड़
2012-2013	-	0.35 करोड़																																
2013-2014	-	0.35 करोड़																																
2014-2015	-	0.55 करोड़																																
2015-2016	-	1.10 करोड़																																
2016-2017	-	0.98 करोड़																																
2017-2018	-	1.00 करोड़																																
2018-2019	-	1.32 करोड़																																
2019-2020	-	1.525 करोड़																																
2020-2021	-	2.92 करोड़																																
2021-2022	-	2.94 करोड़																																
कुल	-	13.04 करोड़																																

टिप्पणी	उत्तर
<p>इसके परिणाम स्वरूप ब्याज उंचता खाता राशि को अधिक बताया गया है। और निर्धारित /अक्षय निधि शीर्ष के अंतर्गत ना.भ.नि. मुख्य खाता को कम बताया गया है।</p> <p>ए.2 स्थाई परिसंपत्तियाँ (अनुसूची - 8) रु. 0.10 करोड़ ए.2.1 चालू पूंजीगत कार्य - कुछ नहीं नाविक भविष्य निधि संगठन के कार्यालय परिसर के नवीकरण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी कार्यालय के पास जमा की गई रु. 0.88 करोड़ की राशि चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में बुक किया गया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने नवीकृत कार्य पूरा कर, 11 अप्रैल, 2022 को परिसर को ना.भ.नि.सं. को सौंप दिया। इस प्रकार 31 मार्च, 2022 तक, अग्रिम को चालू पूंजीगत कार्य के अधीन समायोजित किया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणाम स्वरूप स्थायी परिसंपत्ति - चालू पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) को कम और चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को रु. 0.88 करोड़ अधिक बताया गया है।</p> <p>ए.2.2 सॉफ्टवेयर विकास के पहले चरण की विकास लागत के लिए मेसेर्स नेशनल इन्फोमेटिक सेंटर सर्विसेस (एन.आई.सी.) को ना.भ.नि.सं. द्वारा सॉफ्टवेयर के विकास के लिए रु. 0.09 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। सॉफ्टवेयर तीन चरणों में विकसित किया जाना है, जिसके पहला चरण पूरा हो चुका है और ना.भ.नि.सं. द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से इसे उपयोग में लाया जा रहा है। चूंकि सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है इसलिए वर्ष 2020-21 के दौरान अनुपयोग अनुरक्षण लागत का भी भुगतान किया गया है। जिसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्ति - अमूर्त परिसंपत्तियों (0.05 करोड़ रुपये का निवल मूल्यह्रास) को रु. 0.04 करोड़ रुपये से कम बताया गया है। 'वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम' रु.0.09 करोड़ अधिक बताया है और अधिशेष में रु. 0.05 करोड़ अधिक दिखाया गया है। उपर्युक्त मुद्दे को वर्ष 2019-20 से पृथक ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है।</p> <p>ए.3 निर्धारित अक्षय निधि से निवेश (अनुसूची - 9) - रु. 2505.62 करोड़ डिबेंचर तथा बॉन्ड : रु. 733.27 करोड़ नाविक भविष्य निधि संगठन ने इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) संस्थाओं के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एन.सी.डी.) में रु. 18.30 करोड़ की राशि का निवेश किया था।</p> <p>नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष (फरवरी, 2019) की कार्यवाही के अनुसार दो आईएल एंड एफएस संस्थाओं (आईएल एंड एफएस लिमिटेड और आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज) को आईएल एंड एफएस कंपनी समूह के मामलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा लाल श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं बड़े और सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को भी भुगतान नहीं कर पाती हैं।</p> <p>पूर्णा प्रावधान करने के बजाय, नविक भविष्य निधि संगठन ने आईएल एंड एफएस के एन.सी.डी. में निवेश के मूल्य में कमी के लिए क्रमशः 2020-21 और 2021-22 में प्रत्येक वर्ष रु. 4.49 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है।</p> <p>पोर्टफोलियो मैनेजर (अप्रैल 2022) के अनुसार परिसमापन मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है जो सुरक्षित और असुरक्षित उधारदाताओं के बीच वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। फिर भी, नविक भविष्य निधि संगठन ने खराब निवेश के लिए पूरा प्रावधान नहीं किया है।</p> <p>रु. 9.32 करोड़ (रु. 18.30 - रु. 8.98) का संक्षिप्त प्रावधान के परिणाम स्वरूप निर्धारित / अक्षय निधि से अधिक निवेश और निर्धारित / अक्षय निधि को अधिक बताया गया है।</p>	<p>अन-पोस्टेड की निकासी के समय लाभार्थी अपने नियोक्ता से भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति की तिथि से ब्याज पाने का पात्र होगा। इसी बीच, अन-पोस्टेड मदों पर ब्याज की गणना का कार्य आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>इस कार्यालय ने दिनांक 26.05.2022 के पत्र संख्या 855-II/101/2021-22, दिनांक 29.08.2022 के पत्र संख्या 855-II/345/2021-22 और दिनांक 18.10.2022 के पत्र संख्या 855-III/470/2021-22 के माध्यम से सी.पी.डब्ल्यू.डी (CPWD) से वित्तीय विवरण / स्थायी परिसंपत्तियों की सूची और रुपये में उनके मूल्य के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में संपर्क किया गया था ताकि इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में लिया जा सके।</p> <p>सॉफ्टवेयर की आपूर्ति एन.आई.सी.एस.आई. (NICS) अथवा उसके अपने विक्रेता द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर की लागत की गणना करना संभव नहीं है। एन.आई.सी.एस.आई. से कार्य समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सॉफ्टवेयर की लागत को नियत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।</p> <p>न्यासी मंडल की बैठक में, पोर्टफोलियो मैनेजर की सलाह के अनुसार, कुल राशि रु. 18.30 करोड़ में से आईएल एंड एफएस में निवेश की गई कुल रु. 4.49 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2020-21 में परिशोधित की गई और वित्त वर्ष 2021-22 में रु. 4.49 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। फंड मैनेजर की सलाह के अनुसार, दिनांक 09.11.2022 को आयोजित न्यासी मंडल की 143 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शेष 50% राशि इतनी बड़ी नहीं है और यह राशि आईएल एंड एफएस के अंतिम निपटान में संभवतः 2022-23 में प्राप्त हो जाएगी। तथापि यह राशि आज की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई है। पोर्टफोलियो मैनेजर ने सलाह दी है कि आईएल एंड एफएस से सेटलमेंट मिलने के बाद अगले वित्त वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष</p>

टिप्पणी	उत्तर
<p>उपर्युक्त मुद्दे को वर्ष 2018-19 से पृथक ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है ।</p> <p>बी. सामान्य</p> <p>नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966 की धारा 18 के अनुसार, जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किसी प्रावधान या योजना के तहत देय किसी भी शुल्क के भुगतान या निधि में किसी भी योगदान के भुगतान में चूक करता है, सरकार कर्मचारियों से इस तरह के नुकसान की वसूली कर सकती है। बोर्ड ने 15% को दर (अक्टूबर, 2001 से प्रभावी) से क्षतिपूर्ति को वसूली करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने (फरवरी, 2014 में) यह भी निर्णय लिया है कि शिपिंग कंपनियों / नियोक्ताओं से वसूली गई क्षतिपूर्ति की संबन्धित नाविक के खाते में उसके बिलम्बित भुगतान पर देय ब्याज की सीमा तक जमा किया जाएगा। वसूली गई शेष क्षतिपूर्ति राशि को प्रशासनिक शुल्क के साथ प्रशासनिक खाते में अंतरित किया जाए और इसे 01.04.2013 से लागू किया जाए।</p> <p>नाविक भविष्य निधि संगठन ने 2013-14 से 2021-22 की अवधि में भविष्य निधि अंशदान में विलंब और प्रशासनिक प्रभार की क्षतिपूर्ति के रूप में रु. 3.32 करोड़ प्राप्त किए हैं। यद्यपि नाविक भविष्य निधि संगठन ने (प्रशासनिक प्रभार) से रु. 0.12 करोड़, भविष्य निधि क्षतिपूर्ति से रु. 3.20 करोड़ की अपनी आय को अब तक नाविक भविष्य निधि खाते (सी.डी.सी.) में क्रेडिट नहीं किया है। इसके स्थान पर इसे उचित ब्याज खाता (अनुसूची-3) में जमा किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप नाविक भविष्य निधि मुख्य खाता को कम दिखाया गया है और निर्धारित / अक्षय निधि शीर्ष के अधीन उचित ब्याज खाते को रु. 3.20 करोड़ अधिक दिखाया गया है।</p> <p>सी. प्रबंधन के लिए पत्र</p> <p>जिन कमियों को अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन बिन्दुओं पर सुधारात्मक/उचित कार्रवाई करने के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के जरिये नाविक भविष्य निधि संगठन की जानकारी में लाया गया है ।</p> <p>(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अपनी टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दर्शाई गई बैलेंस शीट, आय - व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान खाते लेखा बहियों के अनुसार हैं ।</p> <p>(vi) हमारी राय और हमारी उचित जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम ने उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों को साथ-साथ पढ़ा है और जो इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध - 1 में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन हैं । समाप्त: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण के अनुसार यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट दी गई है ।</p> <p>(ए) जहां तक इस बैलेंस शीट का संबंध है, यह नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के 31 मार्च 2022 कार्यों से संबंधित है; और</p> <p>(बी) जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है यह आय और व्यय खाते और उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष से संबंधित है ।</p> <p style="text-align: center;">भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से</p> <p style="text-align: center;">ह/- (गुलजारी लाल) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा नौवहन, मुंबई</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 29 मार्च, 2023</p>	<p>2022-23 में इसके लिए प्रावधान करना बेहतर होगा। संदर्भ के लिए कार्यवृत्त के सार की प्रति इसके साथ अग्रेषित की जाती है। आगे यह भी आश्वासन दिया जाता है कि नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आईएलएंडएफएस की शेष राशि का प्रावधान किया जाएगा।</p> <p>यह उल्लेख किया जाता है कि नाविक भविष्य निधि संगठन का सॉफ्टवेयर पुराना संस्करण है और इस समय सॉफ्टवेयर में कोई संशोधन करना संभव नहीं है। नए सॉफ्टवेयर के विकास की प्रक्रिया चल रही है। नए सॉफ्टवेयर में, क्षतिपूर्ति को नाविकों के खाते में और बाकी को प्रशासनिक खाते में अंतरित करने का प्रावधान किया जा सकता है। नए सॉफ्टवेयर के पूरा होने पर नुकसान की भरपाई नाविकों के खातों से करना संभव हो सकता है। इस बीच, व्यक्तिगत नाविकों के खाते पर ब्याज की गणना का कार्य आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p style="text-align: center;">ह/- (सुरेन्द्र कुमार) आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 11 अप्रैल, 2023</p>

अनुबंध - 1

टिप्पणी	उत्तर
<p>1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता : वर्ष 2021-22 की आंतरिक लेखा-परीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा कराई गई थी ।</p> <p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता : निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है :-</p> <p>(i) वसूली गई / अंशदान राशि व्यक्तिगत भविष्य निधि खातों में (अनुसूची 25 के क्रम सं. 6 पर अन-पोस्टेड मदों के रूप में उल्लेख किया गया है) पोस्टिंग करने के लिए लंबित हैं, इसमें वर्ष 1998-99 और उसके आगे की अवधि से संबन्धित मदें शामिल हैं, जो संचित हो रही थी, दिनांक 31 मार्च, 2022 को यह राशि रु. 29.14 करोड़ हो गई है।</p> <p>(ii) नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि अंशदान की अदायगी में देरी करने पर, क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली गई रु. 3.20 करोड़ की राशि सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण संबन्धित नाविकों के खातों में जमा करने के लिए वर्ष 2013-14 से लंबित है।</p> <p>3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति : वर्ष 2021-22 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया है।</p> <p>4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति : नाविक भविष्य निधि संगठन पर वस्तु-सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन लागू नहीं होता है चूंकि ना. भ. नि. सं. पास कोई वस्तु सूची नहीं है।</p> <p>5. देन-दारियों के भुगतान में नियमितता : नाविक भविष्य निधि संगठन अपने सांविधिक भुगतानों को अविवादित रूप से नियमित तौर पर कर रहा है।</p> <p style="text-align: right;">ह/-</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 29 मार्च, 2023</p> <p style="text-align: center;">उप निदेशक</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>अन-पोस्टेड आइटम मुख्य रूप से नियोक्ताओं से प्राप्त नाविकों की भविष्य निधि अंशदान राशि के साथ नाविकों का अनिवार्य विवरण जैसे नाविक का नाम, सीडीसी संख्या और यात्रा अवधि आदि विवरण उपलब्ध नहीं कराने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह एक आवर्ती प्रक्रिया है और नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा इन्हें न्यूनतम करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।</p> <p>यह उल्लेख किया जाता है कि नाविक भविष्य निधि संगठन का सॉफ्टवेयर पुराना संस्करण है और इस समय सॉफ्टवेयर में कोई संशोधन करना संभव नहीं है। नए सॉफ्टवेयर में, क्षतिपूर्ति को नाविकों के खाते में और बाकी को प्रशासनिक खाते में अंतरित करने का प्रावधान किया जा सकता है। नए सॉफ्टवेयर के पूरा होने पर, नुकसान की भरपाई नाविकों के खातों से करना संभव हो सकता है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p style="text-align: right;">ह/- (सुरेन्द्र कुमार) आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 11 अप्रैल, 2023</p>

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 का तुलन पत्र**

(राशि ₹ में)

संचय निधि / पूँजीगत निधि और देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
संचय निधि /पूँजीगत निधि	1	120,344,892.89	112,202,171.54
आरक्षित और अधिशेष	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चिन्हित / स्थायी निधि	3	26,102,461,655.45	23,704,901,984.23
सुरक्षित ऋण और उधार	4	कुछ नहीं	कुछ नहीं
असुरक्षित ऋण और उधार	5	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आस्थगित क्रेडिट देयताएँ	6	1,122,652.30	1,122,652.30
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	211,514,669.84	154,222,540.68
कुल		26,43,54,43,870.48	23,972,449,348.75

परिसंपत्तियाँ	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
नियत परिसंपत्तियाँ	8	10,31,477.53	916,097.31
निवेश - चिन्हित तथा स्थायी निधि से	9	25,506,222,883.28	23,203,432,934.17
निवेश - अन्य	10	97,328,138.54	88,888,114.26
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	830,861,371.13	679,212,203.01
विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में डाला या समायोजित न किया गया हो ।)		कुछ नहीं	कुछ नहीं
योग		26,435,443,870.48	23,972,449,348.75

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक / सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
बिक्री / सेवा से आय	12	59,645,628.91	56,453,139.88
अनुदान / आर्थिक सहायता	13	कुछ नहीं	कुछ नहीं
शुल्क / अंशदान	14	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश से आय (विहित निधि के निवेश से आय)	15	11,973,342.28	9,910,961.68
अधिकार शुल्क, प्रकाशन आदि से आय	16	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्राप्त ब्याज	17	(6,184,255.34)	(4,466,668.48)
अन्य आय	18	131,000.00	59,644.00
पक्के माल और जारी कार्यों के स्टॉक में वृद्धि / कमी	19	कुछ नहीं	कुछ नहीं
योग (ए)		65,565,715.85	61,957,077.08

व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
स्थापना व्यय	20	51,449,852.00	49,218,822.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	5,674,574.72	7,599,186.14
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय			
परिपक्वता पूंजी पर नुकसान	22	कुछ नहीं	कुछ नहीं
स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		–	–
प्रतिभूतियों पर परिशोधन	23	1,137.00	1,136.99
मूल्य ह्रास (वर्ष के अन्त में सकल योग अनुसूची 8 के अनुरूप)		297,430.78	367,855.89
योग (बी)		57,422,994.50	57,187,001.02
व्यय से अधिक आय की अधिकता के कारण शेष (ए-बी)		8,142,721.35	4,770,076.06
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण			
सामान्य आरक्षित से /में अन्तरण			
शेष राशि के अधिशेष / घाटे को संचय निधि / पूँजीगत निधि में अन्तरण		–	–
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24	–	–
आकस्मिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25	–	–

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 1- संचय निधि / पूँजीगत निधि	चालू वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	112,202,171.54	-	109,022,095.48	-
जोड़ें : संचय निधि /पूँजीगत निधि में अंशदान	-	-	(1,590,000.00)	-
जोड़ें /(घटाएँ) : आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय एवं व्यय का शेष	8,142,721.35	-	4,770,076.06	-
वर्ष के अन्त में शेष राशि		120,344,892.89		112,202,171.54
अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष और अन्य निधि				
1. पूँजीगत आरक्षित : नाविक भविष्य निधि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. पुनर्वावलोकन आरक्षित :	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. विशेष आरक्षित : कर्मचारी भविष्य निधि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

	चालू वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
4. सामान्य आरक्षित :				
आय और व्यय लेखा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. ब्याज उचंत खाता	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 3 चिह्नित / स्थायी निधि	निधिवार ब्यौरा					योग	
	नाभनि मुख्य खाता	नाभनि ब्याज उचंत खाता	नाभनि जती खाता	नाभनि कर्मचारी भ. नि. खाता	नाभनि पेंशन एवं उपदान निधि	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
जब्त निधि, ना.भ.नि., कर्मचारी भ.नि. पेंशन एवं उपदान खाता							
ए) निधि का प्रारंभिक शेष	22,955,192,567.60	539,574,964.92	51,649,227.56	11,535,326.30	146,949,897.85	23,704,901,984.23	21,064,123,905.78
बी) निधि में वृद्धि							
i) दान / अनुदान							
ii) लेखा निधि से किए गए निवेश से आय	1,342,166,980.00	1,716,581,284.61	3,259,641.00	661,065.28	7,906,547.99	3,070,675,518.83	2,287,000,236.26
iii) अन्य जोड़	1,821,734,768.97	631,801,951.99	3,468,609.30	3,320,715.14	44,887,278.25	2,505,213,323.65	3,102,660,863.85
योग (ए + बी)	26,119,094,316.57	2,888,058,201.52	58,377,477.86	15,517,106.72	199,743,724.09	29,280,790,826.76	26,453,785,005.89
सी) निधि के उद्देश्य हेतु व्यय / उपयोग							
i) पूंजीगत व्यय							
- नियत परिसंपत्तियां							
- अन्य	858,567,367.15	2,300,091,055.50	3,564,461.34	2,775,167.72	13,331,119.60	3,178,329,171.31	2,748,883,021.66
योग	858,567,367.15	2,300,091,055.50	3,564,461.34	2,775,167.72	13,331,119.60	3,178,329,171.31	2,748,883,021.66
ii) राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
- किराया							
योग							
योग (सी)	858,567,367.15	2,300,091,055.50	3,564,461.34	2,775,167.72	13,331,119.60	3,178,329,171.31	2,748,883,021.66
वर्ष के अंत में निवल शेष (ए + बी - सी)	25,260,526,949.42	587,967,146.02	54,813,016.52	12,741,939.00	186,412,604.49	26,102,461,655.45	23,704,901,984.23

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि ₹ में)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
1) केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2) राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3) वित्तीय विवरण				
ए) आवधिक ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. बैंक				
ए) आवधिक ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
- देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
- देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5) अन्य संस्था और एजेंसियाँ		कुछ नहीं		कुछ नहीं
6) डिबेंचर्स और बॉण्ड्स		कुछ नहीं		कुछ नहीं
7) अन्य (निर्दिष्ट)		कुछ नहीं		कुछ नहीं
कुल		कुछ नहीं		कुछ नहीं
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		कुछ नहीं		कुछ नहीं

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 5, असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. वित्तीय संस्थाएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ए) आवधिक ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. बैंक :	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ए) आवधिक ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7. अवधि जमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8. अन्य (निर्दिष्ट)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुसूची 6 , आस्थगित क्रेडिट देयताएँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ए) पूँजी उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के मालबन्धक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ		
बी) अन्य : रिटर्न चैक खाता		
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	1,122,652.30	1,122,652.30
जोड़े : वर्ष के दौरान	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान भुगतान	-	-
कुल	1,122,652.30	1,122,652.30
टिप्पणी : एक वर्ष या उससे अधिक समय के अंदर देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि ₹)

अनुसूची 7 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	चालू वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
ए) वर्तमान देयताएँ				
1. स्वीकृतियाँ				
2. विविध लेनदार	151,873,674.60		148,648,189.68	
ए) माल के लिए				
बी) अन्य	5,774,648.00	157,648,322.60	3,329,169.00	151,977,358.68
3. प्राप्त अग्रिम	-		-	
4. प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
ए) सुरक्षित ऋण/उधार				
बी) असुरक्षित ऋण/उधार				
5. सांविधिक देयताएँ				
ए) कालातीत (ओवरड्यू)				
बी) अन्य		-		-
6. अन्य वर्तमान देयताएँ	52,027,075.24	52,027,075.24	655,182.00	655,182.00
कुल (ए)		209,675,397.84		152,632,540.68
बी) प्रावधान				
1. कराधान के लिए	249,272.00			
2. उपदान				
3. निर्वतन अधिवर्षिता				
4. संचित अवकाश नगदीकरण				
5. व्यापार अनुज्ञाप्ती / दावा				
6. अन्य संदेहास्पद निवेश	1,590,000.00	1,839,272.00	1,590,000.00	1,590,000.00
कुल (बी)		1,839,272.00		1,590,000.00
कुल (ए + बी)		211,514,669.84		154,222,540.68

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि ₹ में)

अनुसूची 8 - नियत परिसंपत्तियाँ	कुल परिसंपत्तियाँ				मूल्य हास				निवल परिसंपत्तियाँ	
	वर्ष के आरंभ में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ होनेपर	वर्ष के दौरान जोड़ होनेपर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
1. भूमि										
ए) पूर्ण स्वामित्व										
बी) पट्टा भूमि										
2. भवन										
ए) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर										
बी) पट्टे भूमि पर										
सी) स्वामित्व फ्लैट्स और परिसर	79,227.46			79,227.46	7,922.75			7,922.75	71,304.71	79,227.46
डी) भूमि पर अधिरचना (निकाय से संबंधित नहीं)				-					-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण				-					-	-
4. वाहन				-					-	-
5. फर्निचर और फिक्चर्स	178,651.36			178,651.36	17,865.14			17,865.14	160,786.22	178,651.36
6. कार्यालय उपकरण	120,243.02	359,808.00		480,051.02	18,036.45	26,985.60		45,022.05	435,028.97	120,243.02

7. कंप्यूटर / संबंधित उपकरण	503,510.39	53,003.00		556,513.39	201,404.16	16,600.40		218,004.56	338,508.83	5,03,510.39
8. विद्युत संस्थापन									-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें									-	-
10. नलकूप और जलआपूर्ति									-	-
11. अन्य नियत परिसंपत्तियाँ									-	-
12. कानूनी सॉफ्टवेयर	34,465.08	-		34,465.08	8,616.28			8,616.28	25,848.80	34,465.08
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष का योग										-
कुल योग	916,097.31	4,12,811.00		1,328,908.31	253,844.78	43,586.00		297,430.78	1,031,477.53	9,16,097.31

* टिप्पणी : संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियमन 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्य ह्रास की कटौती की गयी है तथा मूल्य ह्रास की गणना डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति के अनुसार की गई है।

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन-प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 9 - चिन्हित / स्थाई निधि से निवेश :	चालू वर्ष 2021-2022	चालू वर्ष 2020-2021
ए) वर्तमान निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में (नाभनि मुख्य खाता + जब्ती + नाभनि कर्मचारी + कर्मचारी पेंशन)		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)		
3. शेयर्स (म्युचुअल फंड्स)		
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स		
5. मुद्रा बाजार / इन्स्ट्रूमेंट्स	40,000,000.00	773,00,000.00
6. सहायक और संयुक्त उद्यम		
7. अन्य (निर्दिष्ट की गई) (टीडीआर)		
योग	40,000,000.00	773,00,000.00
बी) दीर्घ अवधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ (नाभनि मुख्य खाता + जब्ती + नाभनि कर्मचारी + कर्मचारी पेंशन)	5,463,185,400.50	5,540,331,145.90
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)	10,692,390,649.77	9,649,339,980.64
3. शेयर्स (म्युचुअल फंड्स)	1,669,840,944.86	1,074,996,719.13
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	7,332,722,672.29	6,551,388,088.50
5. मुद्रा बाजार इन्स्ट्रूमेंट्स		
6. सहायक और संयुक्त उद्यम		
7. अन्य (निर्दिष्ट की गई) (टीडीआर)	355,196,000.00	312,277,000.00
योग	25,513,335,667.42	23,128,332,934.17
घटाएँ : आईएल और एफएस में संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान	(44,912,784.14)	-
घटाएँ : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(2,200,000.00)	(22,00,000.00)
निवल योग	25,466,222,883.28	23,126,132,934.17
योग (ए + बी)	25,506,222,883.28	23,203,432,934.17

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन-प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 10 - अन्य निवेश :	चालू वर्ष 2021-2022	चालू वर्ष 2020-2021
ए) वर्तमान निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में (नाभनि मुख्य खाता + जब्ती + नाभनि कर्मचारी + कर्मचारी पेंशन)		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)		
3. शेयर्स (म्युचुअल फंड्स)		
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स		
5. मुद्रा बाजार / इन्स्ट्रूमेंट्स		
6. सहायक और संयुक्त उद्यम		
7. अन्य (निर्दिष्ट की गई) (टीडीआर)		
योग		
बी) दीर्घ अवधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ (नाभनि मुख्य खाता + जब्ती + नाभनि कर्मचारी + कर्मचारी पेंशन)	1,286,138.53	1,782,915.25
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)	2,400,000.00	2,400,000.00
3. शेयर्स (म्युचुअल फंड्स)		
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स		
5. मुद्रा बाजार इन्स्ट्रूमेंट्स		
6. सहायक और संयुक्त उद्यम		
7. अन्य (निर्दिष्ट की गई) (टीडीआर)	96,042,000.01	87,105,199.01
योग	99,728,138.54	91,288,114.26
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
निवल योग	97,328,138.54	88,888,114.26
योग (ए + बी)	97,328,138.54	88,888,114.26

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	चालू वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
ए) वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
1) मालसूचियाँ :				
ए) भंडार और पुर्जे	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
बी) खुले उपकरण	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) स्टॉक इन ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
चालू कार्य	-		-	
कच्ची सामग्री	-		-	
2) विविध देनदार				
ए) छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
बी) अन्य (कर्मचारियों को अग्रिम)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
3) हाथ में शेष रोकड (चैक / ड्राफ्ट और प्रपत्र)	-	19,143.25	-	16,841.60
4) बैंक शेष	-		-	
ए) अनुसूचित बैंको के साथ	-		-	
चालू खाते पर				
जमा खाते पर (मार्जिन मनी सहित)	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	-
बचत खाते पर		125,935,116.88		73,934,635.72
बी) गैर-अनुसूचित बैंको के साथ				
चालू खाते पर	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
जमा खाते पर		-		-
बचत खाते पर		कुछ नहीं		कुछ नहीं
4) कैश-इन-ट्रांजिट	-		-	
5) डाकघर बचत खाता	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
कुल (ए)		125,954,260.13		73,951,477.32

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	चालू वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
बी) ऋण अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ				
1) ऋण :				
ए) कर्मचारी	211,937.00		379,261.00	
बी) समान गतिविधियों में संलग्न दूसरी संस्थाओं से	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) अन्य (निर्दिष्ट)				
1) वसूली योग्य भविष्य निधि देयताएँ	223,8471.38		1,863,948.38	
2) वसूली योग्य प्रशासनिक व्यय	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
3) विविध जमा (पक्षों की पेशगियाँ)	21,575.00	247,1983.38	69,365.00	2,312,574.38
2) नगद रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ				
ए) पूँजी खातेपर	13,826,328.00		12,909,912.00	12,909,912.00
बी) भुगतान	कुछ नहीं	13,826,328.00	कुछ नहीं	-
सी) अन्य (पूर्व भुगतान व्यय)	297.00	297.00	269.00	269.00
3) प्रोद्भूत आय				
ए) चिन्हित/स्थायी निधि के निवेश पर (प्रोद्भूत)	654,832,153.90	654,832,153.90	583,015,864.08	583,015,864.08
बी) अनुसूचित बैंकों से	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) ऋण एवं अग्रिम पर	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
डी) अन्य (अप्राप्य आय शामिल)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
4) वसूली योग्य दावा	33,776,348.72	33,776,348.72	7,022,106.23	7,022,106.23
कुल (बी)		704,907,111.00		605,260,725.69
कुल (ए + बी)		830,861,371.13		679,212,203.01

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवा से आय :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. बिक्री से आय		
ए) तैयार माल की बिक्री		
बी) कच्ची सामग्री की बिक्री		
सी) रद्दी माल की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
ए) श्रम तथा कार्यविधी प्रभार (शिपिंग कंपनियों से प्रशासकीय प्रभारों की प्राप्तियों से आय)	59,512,195.41	56,388,315.93
बी) व्यवसायिक / परामर्श सेवाएँ (क्षतिपूर्तियाँ)	155,425.95	64,823.95
सी) एजेन्सी कमीशन और ब्रोकरेज		
डी) अनुरक्षण सेवाएँ (उपकरण / संपत्ति)		
ई) शिपिंग कंपनियों को वापस	(21,992.45)	-
एफ) संपत्ति विक्री	-	-
जी) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	59,645,628.91	56,453,139.88

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹ में)

अनुसूची 13 - अनुदान / आर्थिक सहायता :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
(अवसूली योग्य अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त)		
1. केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. सरकारी एजेन्सियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. संस्था / कल्याण निकाय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. अन्य (निर्दिष्ट)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹ में)

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. प्रवेश शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. वार्षिक शुल्क /अंशदान	-	-
3. सेमीनार / प्रोग्राम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का उल्लेख किया जाना है ।	कुल	कुछ नहीं

अनुसूची 15 - निवेश से आय (चिन्हित / स्थायी निधि से किए गए निवेश पर प्राप्त ब्याज जो निधि को अंतरित किया गया)	चिन्हित निधि से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. ब्याज				
ए) सरकारी / राज्य प्रतिभूतियों पर	945,324,945.33	864,249,611.56	118,108.00	137,958.00
बी) अन्य बॉण्डस् / डिबेंचर्स	525,673,271.96	409,147,936.94		
सी) एस. डी. एस	242,774,371.69	250,259,203.00		
2. लाभांश	-	-		
ए) शेयर पर	-	37,310,000.00		
बी) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-		
3. किराया				
4. अ. अन्य (निर्दिष्ट) (टीडीआर)	12,278,091.63	9,125,195.00	11,706,260.00	9,648,037.00
ब. पूंजीगत लाभ	2,543,959.00	168,749,353.07	4,360.28	-
5. बचत बैंक ब्याज खाता		1,948,950.95	144,614.00	124,966.68
कुल	1,728,594,639.61	1,740,790,250.52	11,973,342.28	9,910,961.68
चिन्हित / स्थायी निधियों में अंतरण	1,728,594,639.61	1,740,790,250.52	11,973,342.28	9,910,961.68
टिप्पणी: चिन्हित निधि के निवेश से प्राप्त आय संबंधित निधि में जमा				

अनुसूची 16 - स्वामित्व एवं प्रकाशन से आय :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. स्वामित्व (रॉयल्टी) से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. प्रकाशन से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. अन्य (निर्दिष्ट)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुसूची 17 - प्राप्त ब्याज :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. आवधिक जमा पर		
ए) अनुसूचित बैंको के साथ		
बी) गैर - अनुसूचित बैंको के साथ		
सी) संस्थाओं के साथ		
डी) अन्य प्रोद्भूत व्याज	(6,184,255.34)	(4,466,668.48)
2. बचत खाते पर		
ए) अनुसूचित बैंको के साथ		
बी) गैर - अनुसूचित बैंको के साथ		
सी) संस्थाओं के साथ		
डी) अन्य से प्राप्त व्याज		
3. ऋण पर		
ए) कर्मचारी / स्टाफ		
बी) अन्य		
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
कुल	(6,184,255.34)	(4,466,668.48)

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹ में)

अनुसूची 18- अन्य आय :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
ए) निजी परिसंपत्तियाँ		
बी) बिना लागत अथवा अनुदान से हासिल की गई संपत्ति		
2. निर्यात लाभ		
3. मांग से अधिक प्रावधान जो वापस जमा किया	-	44,870.00
4. फुटकर आय	131,000.00	14,774.00
अभिमूल्यन	-	-
कुल	131,000.00	59,644.00

अनुसूची 19- तैयार माल एवं जारी कार्य के स्टॉक में वृद्धि / कमी :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ए) इतिशेष स्टॉक		
-तैयार माल	-	-
-जारी कार्य	-	-
बी) घटाएँ : आदिशेष स्टॉक		
-तैयार माल	-	-
-जारी कार्य	-	-
निवल वृद्धि / कमी (ए-बी)	-	-

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹ में)

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ए) वेतन और मजदूरी	7,013,432.00	6,803,300.00
बी) भत्ते और बोनस / एमएसीपी	4,803,764.00	3,612,220.00
सी) भविष्य निधि का अंशदान		-
डी) अन्य निधियों को अंशदान (उपदान, अवकाश वेतन और पेंशन)	29,562,212.00	29,200,000.00
ई) कर्मचारी कल्याण व्यय (चिकित्सा बिलें, ट्यूशन फीस की भरपाई)	506,357.00	523,727.00
एफ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों पर व्यय)	9,557,289.00	8,982,819.00
जी) अन्य अवकाश नगदीकरण	-	56,856.00
एच) मानदेय	6,798.00	39,900.00
कुल	51,449,852.00	49,218,822.00

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹ में)

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासकीय व्यय आदि :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ए) खरीद		
बी) मजदूरी		
सी) आवक गाड़ी भाडा और परिवहन किराया		
डी) विद्युत और शक्ती	163,644.57	145,108.00
ई) जल प्रभार	-	
एफ) बीमा	862.00	804.00
जी) मरम्मत एवं अनुरक्षण संगणक सॉफ्टवेअर के विकास सहित	340,635.00	1,867,845.00
एच) उत्पाद शुल्क		
आय) किराया दरें और कर	343,922.00	335,970.00
जे) वाहन चलाना और अनुरक्षण		
के) पोस्टेज, दूरभाष और संप्रेषण प्रभार	414,455.00	221,175.00
एल) मुद्रण और लेखन सामग्री	101,648.00	256,574.00
एम) यात्रा और सवारी व्यय	516,050.00	920,021.00
एन) सेमीनार / कार्यशालाओं पर व्यय		
ओ) अंशदान खर्च / समाचार पत्र एवं आवधिक किताबों पर खर्च	37,088.00	29,424.00
पी) शुल्क पर व्यय	17,520.80	20,058.54
क्यू) लेखा परीक्षकों का मानदेय	293,548.00	373,038.00
आर) अतिथि सत्कार पर खर्च	80.00	-
एस) व्यावसायिक प्रभार	85,750.00	88,690.00
टी) संदेहास्पद तथा अप्राप्य ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान		
यू) बट्टे खाते में अप्राप्त शेष		
व्ही) रबड की मोहर		-

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
डब्ल्यू)माल भाड़ा		
एक्स) वितरण व्यय		
वाय) विज्ञापन और प्रकाशन		
झेड) i) अन्य फुटकर व्यय	253,645.35	326,463.00
ii) संविदात्मक कर्मचारी	3,099,603.00	2,706,829.00
iii) नॉन-रिकरिंग राजस्व		
iv) पेंशन अंशदान एवं छुट्टी वेतन		-
ए-1) डिजिटाइजेशन	-	257,884.00
बी-1) स्वच्छ भारत अभियान	2,797.00	47,362.60
सी-1) टीडीएस शुल्क	3,326.00	1,940.00
कुल	5,674,574.72	7,599,186.14

अनुसूची 22 - उपदान, आर्थिक सहायता पर व्यय :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ए) संस्थाओं / संगठनों को दिया गया उपदान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) संस्थाओं / संगठनों को दी गयी आर्थिक सहायता / परिपक्वता पूँजी पर नुकसान	-	-
सी) नियत परिसंपत्तियाँ बेचने पर नुकसान	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 23 - ब्याज / ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ :	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ए) नियत ऋण पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सी) अन्य - ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ	1,137.00	1,136.99
डी) एप्रीसिएशन (मूल्यवृद्धि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	1,137.00	1,136.99

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई**
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. रूढ़िगत लेखापद्धति

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन तथा अर्जित आधार पर तैयार किया जाता है। अर्जित में नौवहन कंपनियों से लिए जाने वाले प्रशासनिक व्यय तथा क्षति (दंडात्मक शुल्क) के भुगतान में विलंब होने को शामिल नहीं किया जाता है इन्हें वास्तव में इनके प्राप्त होने पर (नकद) ही दर्ज किया जाता है क्योंकि प्राप्त होने वाली धनराशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये खाते मुख्य रूप से गोइंग कर्न्सन एन्ड कन्सर्वेटिव्ज के सिद्धान्त पर तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व जानकारी

- i) भविष्य निधि अंशदान की गणना रोकड आधार पर की गयी है, हालाँकि जहाज पर नाविकों की नियुक्ति पर (अर्थात् साइन ऑन होने पर) करार प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन भविष्य निधि और अन्य अंशदान नाविकों की सेवा समाप्त के बाद 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित किए जाते हैं। देय आधार पर भविष्य निधि अंशदानों की गणना करना व्यवहार्य नहीं है।
- ii) प्रशासकीय प्रभारों से उत्पन्न आय की भी रोकड आधार पर गणना की जाती है। रूढ़िवाद के सिद्धान्तों को देखते हुए प्रोद्भूत आधार पर प्रशासकीय प्रभारों से प्राप्त आय की गणना करना व्यवहार्य नहीं है और उचित भी नहीं है।
- iii) अंशदानों के विलंबित भुगतान पर दंडनीय प्रभारों (क्षतियाँ) से उत्पन्न आय की गणना भी रोकड आधार पर की गई है। क्षतियों के दावे समेकित रिपोर्ट्स प्रणाली से तैयार किए जाते हैं। शिपिंग कंपनियों से स्पष्टीकरण / सफाई प्राप्त होने पर ही क्षतियों को निश्चित रूप दिया जा सकता है। बहुत बार निधि रिटर्न में जानकारी भरने में गलती / चूक, यात्रा की लगातार अवधि, बकाया भुगतान आदि जैसे कारणों से दावे व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए लेखा का सही और उचित चित्र दर्शाने और गलत विवरण टालने के लिए क्षतियों की गणना रोकड आधार पर करना सही है।
- iv) बॉण्ड, बैंक डिपॉजिट, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि में निवेश पर ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है और प्रयोज्यता के अनुसार रिटर्न / ब्याज की दर और निवेशित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को ध्यान में रखते हुए समयानुपात के आधार पर गणना की जाती है।

3. व्यय की जानकारी

- i) चालू वर्ष 2021-22 से संबंधित उठाए गए अथवा बाद में उठाए जानेवाले सभी अनिवार्य बकाया व्यय की गणना प्रोद्भूत आधार पर की गयी है।
- ii) चालू वर्ष के व्यय में उपबलध किए गए पूर्व भुगतान व्ययों को भी अलग कर दिया गया है और उन्हें एक अलग शीर्ष के अधीन दिखाया गया है।

4. परिसंपत्तियाँ :

- i) वर्ष के दौरान प्राप्त नियत परिसंपत्तियों को खरीद मूल्य के आधार पर बताया गया है, जिसमें प्राप्ति से संबंधित अनुषंगिक और सीधे व्यय और आवक भाड़ा, प्रभार और करों का समावेश है और मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार घटाया गया है।
- ii) नियत परिसंपत्तियों को 01.04.2021 के लिखे गए मूल्य पर लिया गया है, जिसमें से आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार वर्ष दौरान मूल्यहास को घटाया गया है।

5. मूल्यहास

- i) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार और डब्ल्यूडीवी कार्यविधि के अनुसार मूल्यहास की गणना की गयी।
- ii) वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों में जोड़ / कटौती के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार मूल्यहास किया गया है।

6. निवेश

- i) निवेश लागत पर मूल्यांकित है। लागत में ब्रोकरेज, ट्रांसफर स्टैम्स जैसे प्राप्ति व्ययों का समावेश है।
- ii) निवेश अर्जन पर भुगतान किए गए प्रीमियम को परिपक्वता की तारीख तक समय अनुपात के आधार पर परिशोधित किया जाता है। दूसरी और छूट पर अर्जित प्रतिभूतियों को निवेश की अवधि में अनुपात रूप में मूल्यांकित नहीं किया जाता है। जो लेखा के समान प्रारूप के प्रावधान के विरुद्ध है।

7. सरकारी अनुदान / सहायता

चालू वर्ष के दौरान कोई भी सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

8. अन्य प्रगटीकरण

- i) नाविक भविष्य निधि योजना 1966 के पैरा 59(3) के अधीन कर्मचारियों के जब्त अंशदान को इसी योजना के पैरा 61(3) के अधीन जब्त खाते में अंतरित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान नाविक भविष्य निधि संगठन योजना 1966 के पैरा 59(3) के अधीन रुपये 32,155.75 की राशि जब्त की गई है।
- ii) नाविक भविष्य निधि के निवेशों पर प्राप्त ब्याज को ब्याज उचंत खाते में जमा किया गया है और वर्ष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दर से ब्याज को इस खाते से नाविकों के भविष्य निधि खातों में विनियोजित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज की व्यापारिक / प्रोद्भूत लेखाद्धति के अनुसार इस खाते में जमा किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त ब्याज, जो पिछले वर्ष से संबंधित है, उसे अलग शीर्षक के अधीन दिखाया गया है।

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

संगठन के खिलाफ दावे ऋण के रूप में नहीं पाये गये हैं।

2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम का सामान्य कारोबार में उनकी उगाही पर प्राप्त होनेवाला कम से कम मूल्य तुलन पत्र में दिखायी गयी कुल राशि के समान है।

3. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के प्रयोजन के लिए नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966 की धारा 11 के आधारपर, इस अधिनियम के अधीन यह निधि मान्यता प्राप्त भविष्य निधि समझी जाएगी। इस प्रकार निधि की आय पर आयकर लागू नहीं है। चूँकि नाविक भविष्य निधि संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(25) के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है, कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

4. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखा परीक्षक / अंतरिक लेखा परीक्षक / सरकारी लेखा परीक्षक विभाग	₹ 293,548.00
कराधान मामले	कुछ नहीं
प्रमाणन के लिए प्रबंधकीय सेवा	कुछ नहीं
अन्य	कुछ नहीं

5. पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्गठन किया गया है। चालू वर्ष के आँकड़े लेखा पद्धति के सामान्य फॉर्मेट के अनुसार प्रोद्भूत आधारपर है।

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

6. बिना इन्दराज मदों की आवृत्ति का विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रविष्टियों की संख्या	राशि (रुपये)
(i)	पिछली रिपोर्ट के अनुसार शेष	12959	201,894,086.02
(ii)	जोड़े : वर्ष 2020 - 2021 के दौरान	8646	132,345,759.25
(iii)	कुल योग	21605	334,239,845.27
(iv)	घटाएं : वर्ष के दौरान निकासी (-)	3750	42,748,108.96
(v)	शेष	17855	291,491,736.31

7. अन्य घोषणाएँ

- i) 31.03.2022 को नाविक भविष्य निधि के कुल निवेशों की बुक वैल्यू रु. 25,272,226,165.85 करोड़ है और अंकित मूल्य रु. 25,199,092,533.50 करोड़ है जिसका बाजार मूल्य रु. 25,928,830,360.13 है । (निकृष्ट निवेश सहित)
- ii) निम्नलिखित संदिग्ध निवेशों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं क्योंकि बकाया राशि की वसूली के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं ।

क्र. सं.	नाविक भविष्य निधि	राशि (रुपये में)
क)	प्रशासनिक खाता 16% उत्तर प्रदेश कताई मिल	: ₹ 2,400,000.00
ख)	कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि 16% उत्तर प्रदेश कताई मिल	: ₹ 2,200,000.00
	कुल	** ₹ 4,600,000.00

- iii) गैर निष्पादित निवेशों के मूलधन एवं ब्याज की वसूली हेतु कानूनी प्रयास जारी हैं ।

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

- iv) ना. भ. नि. संगठन के 10 कर्मचारी सदस्यों एवं 31 पेन्शनरों और 03 एनपीएस स्टाफ सदस्यों के लिए 31.03.2022 तक की पेन्शन एवं ग्रेज्युटी का बीमांकन मूल्यांकन मेसर्स ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेंट द्वारा किया गया है। उनके बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार कुल देयताएं 20.91 करोड़ है और दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक शेष राशी 17.31 करोड़ है। आगे यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में किए गए बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार पेंशन एवं ग्रेज्युटी लेखा में संचयित निधि के लिए रु. 3.61 करोड़ की राशी की कमी है। इस संबंध में निधि को संभालने / पूरा करने के लिए एक मुश्त मंजूरी पर विचार करने हेतु मंत्रालय को एक पत्र दिनांक 26.05.2017 को लिखा गया है। तथापि न्यासी मंडल के अनुमोदन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान तदर्थ आधार पर प्रशासनिक लेखा से पेन्शन एवं ग्रेज्युटी निधि में रु. 2.94 करोड़ अंतरित किए गए हैं।
- v) डीएचएफएल के नॉन-कन्वर्टेबल डिबेंचर्स (NCDs) में निवेश किए गए 104.43 करोड़ रुपये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRISIL) द्वारा इसे वित्त वर्ष 2021-22 में निकृष्ट निवेश मानते हुए डीएचएफएल प्रतिभूतियों का अंतिम निपटान निम्नानुसार किया गया है :-

	बैंक में अंतरित की गई नकद राशि (करोड़)	पीरामल की जारी नई प्रतिभूतियाँ (करोड़)	निपटान के प्रति कुल प्राप्तियाँ (करोड़)	परिशोधन पूंजीगत हानि (करोड़)	कुल योग (करोड़)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ
			(बी + सी)		
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बुक की गई पूंजीगत हानि	-	-	-	25.51	25.51
वित्तीय वर्ष 2021-22 में डीएचएफएल का निपटान	22.96	27.62	50.58	28.25	78.83
कुल (करोड़)	22.96	27.62	50.58	53.76	104.34

- vi) आईएल एंड एफएस में निवेश किए गए 18.30 करोड़ रुपए को निकृष्ट निवेश के रूप में मानते हुए, इस निवेश पर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज प्राप्त नहीं हुई है। एनसीएलएटी के समक्ष (11 फरवरी, 2019) हुई कार्यवाही के अनुसार दो आईएल अन्ड एफएस कम्पनियों को (आईएल अन्ड एफएस लि. और आईएल अन्ड एफएस फाइनेंसियल सर्विस) संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड निदेशक द्वारा लाल कोटि (Red Category) में रखा गया है।
- vii) वित्त वर्ष 2020-21 में आई.एल. एंड एफ.एस. प्रतिभूति में निवेश से 4.50 करोड़ रुपए की कमी की गई है और वित्त वर्ष 2021-22 में 4.49 करोड़ रुपए की कमी की गई है।

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

- viii) न्यासी बोर्ड की 138 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेबी के नियमों के अनुसार ओवरनाइट फंड को लिक्विड फंड में निवेश के रूप में माना जाता है, ओवरनाइट फंड में ऐसा निवेश अस्थायी प्रकृति का होता है और पोर्टफोलियो मैनेजर दैनिक आधार पर बेहतर निवेश के अवसर के रूप में इसकी देखभाल करते हैं ।
- ix) वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में नियत परिसंपत्तियों की लागत का मूल्य रु. 1,328.908.31 है । चालू वर्ष के अंत में मूल्यहास के बाद रुपये 297,430.78 है और चालू वर्ष के अंत में निवल परिसंपत्तियों का मूल्य रुपये 1,031,477.53 है ।
- x) श्री ब्रोजेन चन्द्र डे, सीडीसी नं. सीएल 16657 धारक नाविक ने बहरामपुर, मुर्शिदाबाद जिला उपभोक्ता निवारण मंच में भविष्य निधि की बकाया धन राशि प्राप्त नहीं होने के लिए वर्ष 2005 में एक केस फाइल किया था । केस का तथ्य यह है कि उनके दावे का निपटारा वर्ष 2000 में कर दिया गया था और भारतीय स्टेट बैंक, किद्वारपोरे, कोलकाता शाखा का आहरित राशि रु. 162,703.00 का चेक उनके निवास के पते पर भेजा गया था जोकि पंजीकृत पावती डाक के अधीन पावती पर विधिवत हस्ताक्षर किए हुए थे । बैंक ने दि. 02.11.2000 को पहले ही ना.भ.नि.सं. के खाते से राशि आहरित कर दी थी ।
- xi) प्रतिभूतियों की वसूली अथवा रुपए 92.78 करोड़ जो घोटाले में गुम हो गए थे से संबन्धित वाद सं. 633/2004 न्यासी मण्डल बनाम ए.के.गोंड एवं अन्य का मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के विचाराधीन है ।
- xii) विभिन्न शिपिंग कंपनियों से भविष्य निधि के रूप में कई वर्षों से रुपए 3,46,456.27 की राशि बकाया थी । यह कंपनियों परिसमापन के अधीन है और ना.भ.नि.सं. द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए संबन्धित आधिकारिक परिसमापक के समक्ष दावे दायर किए गए हैं ।
- xiii) एम.एफ.ओ. द्वारा अपने दिनांक 02 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या एफ. नं. 11/14/2013-पीआर के अंतर्गत जारी की गई निवेश पद्धति ना.भ.नि.सं. द्वारा निवेश के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस के जरिये अपनाई जा रही है ।
- xiv) भविष्य निधि के अंशदान के अलावा ना.भ.नि.सं. नियोक्ताओं से नाविकों के पक्ष में वार्षिकी और अनुग्रह राशि भी प्राप्त करता है । प्राप्त वार्षिकी और अनुग्रह राशि पर प्रशासनिक शुल्क नहीं लगाया जाता है ।
- xv) सेवा निवृत्ति हित लाभ नीति निम्नानुसार तैयार की जाएगी :- पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं । नाविक भविष्य निधि संगठन ने पेंशन फंड और ग्रेच्युटी फंड को शामिल किया है । पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रति कंपनी की देयता को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और 1 अप्रैल, 2004 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारी के लिए पेंशन के मामले को छोड़कर लागू होनेवाले राजस्व खातों पर लगाया जाता है । पेंशन निधि के लिए निर्धारित अंशदान को राजस्व खातों में यथा लागू प्रभारित किया जाता है । समय समय पर किए गए योगदान के अलावा कंपनी का कोई और दायित्व नहीं है ।

- xvi) वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है ।
- xvii) “कृपानिधि बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9, वालचंद हीराचंद मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001” में स्थित नाविक भविष्य निधि संगठन का कार्यालय परिसर 19 फरवरी, 1970 को क्षेत्रफल 3025 वर्गफुट खरीदा गया है। समझौते की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ना.भ.नि.सं. मेसर्स मूलराज तुलसीदास और फत्तेनशी तुलसीदास को रु. 1.82 लाख का भुगतान करेगा और रु. 3.93 लाख मेसर्स कृपानिधि लि. को भुगतान किया जाएगा । ना.भ.नि.सं. द्वारा मेसर्स कृपानिधि लि. को भुगतान किए गए रु. 3.93 लाख में से 100/- के 120 शेयर जारी किए जाएंगे और शेष 3.81 लाख रुपए को ना.भ.नि.सं. के जमा के रूप में माना जाएगा । संपत्तियों का “नामकरण कृपानिधि भवन में स्वामित्व फ्लैट” है और उस भूमि पर सुपर संरचना जो इस इकाई से संबंधित नहीं है।
- xviii) अदावा राशि (अधिवर्षता) 60 वर्ष से ऊपर की आयु से संबंधित है और 656 नाविकों से संबंधित रु. 34.40 करोड़ रुपए की राशि का निपटारा कर दिया गया है । शेष 56.81 करोड़ रुपए की अदावा राशि 5549 (656 + 55 = 6205) नाविकों की लंबित है।
5549 नाविकों का आयुवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

आयु	नाविकों की संख्या
60-65	2250
66-70	1585
71-75	785
76-80	460
81-85	220
86-90	202
91-95	47
कुल	5549

8. भारतीय राष्ट्रीय नाविक यूनियन (एन.यू.एस.आई) और नियोक्ताओं के बीच हुए द्विपक्षीय समझौता के अधीन विदेशी जहाज के मालिकों द्वारा नाविकों का भविष्य निधि अंशदान प्राप्त हुआ है ।
9. संलग्न की गई अनुसूची 1 से 25 जो 31 मार्च, 2022 की बैलेंसशीट और उसी तिथि को समाप्त वर्ष की आय-व्यय के खातों के एक भाग के रूप में हैं ।

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान**

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
I) आदि शेष			I) व्यय		
ए) हाथ में रोकड	6,440.60	8,457.20	ए) स्थापना व्यय	12,011,828.00	10,686,939.00
बी) बैंक शेष	-	-	बी) प्रशासकीय व्यय (अन्य)	3,125,745.00	3,316,575.00
i) चालू खाते में	-	-	सी) गैर-आवर्ती व्यय	1,329,227.00	2,828,380.40
ii) जमा खाते में	-	-	डी) आवर्ती	2,436,867.92	3,140,656.60
iii) बचत खाते में	73,934,635.72	224,574,610.27	II) विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए निधि से भुगतान		
			कृपानिधी को किया गया भुगतान (प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए किए गए भुगतान के साथ फंड या प्रोजेक्ट का नाम भी दर्शाया जाना चाहिए)	339,360.00	335,970.00
II) प्राप्त अनुदान			III) निवेश एवं जमा		
ए) भारत सरकार से	-	-	ए) चिन्हित / स्थायी निधि से	-	-
बी) राज्य सरकार से	-	-	बी) निजी निधि से (अन्य निवेश)	4,625,651,172.73	4,023,396,683.13
सी) अन्य स्रोतों से (पूंजी और राजस्व विस्तार के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाना चाहिए)	-	-	सी) खरीदी हुई प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत व्याज	28,645,363.71	31,053,001.14
			IV) नियत परिसंपत्तियों एवं पूँजीगत चालू कार्यों पर खर्च		
III) निवेश पर प्राप्त ब्याज से आय :			ए) नियत परिसंपत्तियों की खरीद	-	-
ए) चिन्हित / स्थायी निधि	1,728,185,529.98	1,581,951,859.13	बी) पूँजीगत जारी कार्यों पर व्यय	-	-
बी) निजी निधि (अन्य - निवेश)	-	-	V) अधिशेष राशि / ऋण की वापसी		
			ए) नौवहन कंपनियों को धनवापसी (पी.एफ.)	269,338.45	-
IV) प्राप्त ब्याज :			बी) राज्य सरकार को	-	-
ए) बैंक जमा पर	-	-	सी) अन्य नौवहन प्रदाताओं की निधी (प्रशासकीय)	-	-
बी) ऋण, अग्रिम आदि	-	-			

V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			VI) वित्त शुल्क (ब्याज)		
i) विविध आय	131,000.00	14,774.00	i) पूंजी हानि	283,821,248.68	152,660.34
ii) अग्रिमों की वसूली	169,822.00	612,236.00	ii) बैंक शुल्क	73,642.74	39,022.46
iii) अन्य प्राप्तियां (प्रतिभूति जमा)	48,290.00	-	VII) अन्य भुगतान (विशिष्ट)		
iv) लौटे चेकों का खाता	-	-	i) अंतिम निकासी	661,386,295.55	267,154,744.38
v) प्रशासकीय प्रभार	59,512,195.41	56,388,315.93	ii) अप्रतिदेय निकासियाँ	37,211,227.82	20,375,198.00
vi) क्षतियां (प्रशासन)	155,425.95	64,823.95	कैशियर से जारी अ.नि. परंतु कम्प्यूटर सिस्टम में नहीं हुई है।	1,052.00	-
VI) उधार राशि			iii) अग्रिम का भुगतान	2,498.00	613,560.00
VII) अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दे) :			iv) बोलीकर्ताओं को वापस बयाना राशि	210,000.00	-
i) शिपिंग कंपनियों से अंशदान	1,639,310,230.57	1,560,537,346.99	v) कर्मचारी भविष्य निधि से निकासी	1,100,800.00	670,000.00
ii) कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	1,578,800.00	1,190,000.00	vi) वापिस हुए चेकों का भुगतान	-	-
iii) कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम की वापसी	23,350.00	274,000.00	vii) ग्रेच्युटी और पेंशन कम्प्यूटेशन का भुगतान	29,400,000.00	29,200,000.00
iv) मुक्त किया गया निवेश	2,232,158,678.82	849,385,569.08	viii) पेंशनरों का भुगतान	9,628,569.00	8,825,589.00
v) जब्त की गई राशि	49,862.75	-	ix) पोर्टफोलियो मैनेजर, कस्टोडियन एवं सलाहकार को भुगतान	8,198,571.00	550,066.00
vi) टीडीएस की वापसी	4,246.00	-	x) सुरक्षा जमा (महा. टे. लि. नि.)	500.00	-
vii) अन्य-कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी	29,400,000.00	29,200,000.00	xi) भ.नि. से प्रशा. खाते में अंतरित राशि	793,509.20	-
viii) ना.भ.नि. क्षतियाँ	3,082,953.46	3,191,942.15	xii) अधिवक्ता फीस	25,000.00	-
ix) बकाया : ट्राइल बैलेंस के अनुसार	5,575.00	8,811.00	xiii) भ. नि. से जब्ती खाते में अंतरित राशि	32,155.75	17,707.00
x) विविध व्यय के अग्रिम की वसूली	-	6,000.00	xiv) पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के बकाया भुगतान	8,811.00	15,270.00
xi) अंतिम निकासी का बकाया + शेष भ.नि.	51,568,854.99	-	xv) निविदाओं की बयाना राशि की वापसी	-	545,000.00
xii) जब्ती का बकाया	16,274.25	-	VIII) इति शेष		
xiii) निविदाओं की बयाना राशि	-	700,000.00	ए) हाथ में रोकड	616.25	6,440.60
xiv) पूंजीगत लाभ	12,296,351.18	168,749,353.07	बी) बैंक में जमा	125,935,116.88	73,934,635.72
कुल योग :	5,831,638,516.68	4,476,858,098.77	कुल योग :	5,831,638,516.68	4,476,858,098.77

ह/-
अनुभाग प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

NAVIK BHAVISHYA NIDHI



**SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANISATION
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS)**

**56th ANNUAL ACCOUNT
FOR YEAR 2021 - 22**

ON THE WORKING OF SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966

**OFFICE OF
THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND COMMISSIONER
KRUPANIDHI, 3RD FLOOR, 9, WALCHAND HIRACHAND MARG, BALLARD ESTATE, MUMBAI - 400 001.**

**FAX - 022-2261 62 02 • PHONE - 022-22616925, 022-22662044
Web site :www.spfo.gov.in • E-mail Address : spfo-commr@spfo.gov.in**

FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE
CENTRAL AUTONOMOUS BODIES
(NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND SIMILAR
INSTITUTIONS)

CONTENTS

	PAGES
SEPARATE AUDIT REPORT OF (CAG)	6-9
BALANCE SHEET	10
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	11
SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS	12-34
STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS	35

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF THE INDIA ON THE ACCOUNTS
OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022.**

Comments	Reply
<p>1. We have audited the attached Balance Sheet of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai (SPFO) as at 31 March 2022 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Para 48 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 notified by the Government of India in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966. These Financial Statements are the responsibility of the Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.</p>	Noted
<p>2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.</p>	Noted
<p>3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.</p>	Noted
<p>4. Based on our audit, we report that:</p>	
<p>(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;</p>	Noted
<p>(ii) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Para 47 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966;</p>	Noted
<p>(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Seamen's Provident Fund Organisation as required under Para 47 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 in so far as it appears from our examination of such books;</p>	Noted
<p>(iv) We further report that:</p>	
<p>A. Balance Sheet A.1. Earmarked/Endowment funds (Schedule 3) : ₹ 2610.24 crore A.1.1 SPF Pension & Gratuity Fund : ₹ 18.64 crore</p> <p>As per the actuarial valuation report, the liability towards Pension Fund, Gratuity and Leave Encashment as on 31 March 2022 is ₹ 20.91 crore. Since, the fund balance as on 31 March 2022 is ₹ 18.64 crore, there was a deficit of ₹ 2.27 crore in the Fund.</p> <p>This has resulted in understatement of Earmarked/Endowment Funds (SPF Staff Pension & Gratuity Fund), and 'Establishment Expense' and corresponding overstatement of 'Surplus' to the extent of ₹ 2.27 crore.</p> <p>The issue is being raised in the Separate Audit Report since 2012-13.</p>	<p>This issue was raised in SAR 2012-13 at the time of ₹ 1.67 crores was balance in the SPF Staff Pension & Gratuity Fund. At that time, Actuarial Valuer was not engaged in SPFO. Thereafter, M/s. Global Risk Consultant appointed as Actuarial Valuer in 2016-17.</p> <p>As per Actuarial Valuation report for the F.Y. 2015-16, total liability of ₹ 16.60 crores towards Officers and Staff Members of the SPFO against the actual balance available in the fund amounted to ₹ 5.82 crores for the F.Y. 2015-16. Further it is submitted that ₹ 10.78 crores deficit against the accumulated Fund in the Pension and Gratuity Account as per Actuarial Valuation report up to the F.Y. 2015-16.</p> <p>In this context, this office had approached to the Ministry vide letter no. 511/0006/2017 dated 26.05.2017 for one time grant of ₹ 11.23 crores. As there was delay in processing of above request by Ministry, the Board of Trustees had acted proactively and decided to recoup the gap in deficit in a phased manner out of the funds available with its own resources from Administrative charges.</p>

Comments	Reply																																	
<p>A.1.2 Interest Suspense Account: ₹ 58.80 crore SPF Main account: ₹ 2526.05 crore</p> <p>This does not include an amount of ₹ 6.43 crore towards interest on unposted items payable to the concerned Seaman. Every Seaman is entitled to interest on his contribution from the date of contribution. But, in respect of unposted items, the total interest of seafarer is calculated in the system while clearing unposted items which may vary from one year or more than one year. These unposted items are lying since 1998-99 awaiting clearance.</p> <p>This has resulted in overstatement of 'Interest Suspense Account' and understatement of 'SPF Main Account' under the head "Earmarked /Endowment Fund".</p> <p>A.2. Fixed Assets (Schedule 8)- ₹ 0.10 crore A.2.1 Capital Work in Progress - NIL</p> <p>An amount of ₹ 0.88 crore deposited with CPWD for renovation of office premises of SPFO was booked as Advances under Current Assets, Loans and Advances. CPWD handed over the possession of premises to SPFO on 11 April 2022. Thus, as on 31 March 2022, the advance should have been adjusted against Capital Work in Progress.</p> <p>This has resulted in understatement of Fixed Assets - CWIP and overstatement of Current Assets, Loans and Advances by ₹ 0.88 crore.</p> <p>A.2.2 An amount of ₹ 0.09 crore being payment made by SPFO to M/s National Informatics Centre Services Inc. towards development cost of Phase-I of Software development. The software was to be developed in three phases of which Phase I has been completed and is being used by SPFO since 01 October 2020. As the software has been put to use and also the Application Maintenance Cost has been paid during the year 2020-21, the same should be capitalized. This has resulted in understatement of Fixed Assets - Intangible Assets (net of Depreciation of ₹ 0.05 crore) by ₹ 0.04 crore, overstatement of 'Current Assets, Loans and Advances' by ₹ 0.09 crore and overstatement of Surplus by ₹ 0.05 crore. The above issue is being raised in the Separate Audit Report since 2019-20.</p>	<p>Accordingly, the details of transferred Fund are as under :-</p> <table border="1"> <tr><td>2012-13</td><td>-</td><td>0.35 crores</td></tr> <tr><td>2013-14</td><td>-</td><td>0.35 crores</td></tr> <tr><td>2014-15</td><td>-</td><td>0.55 crores</td></tr> <tr><td>2015-16</td><td>-</td><td>1.10 crores</td></tr> <tr><td>2016-17</td><td>-</td><td>0.98 crores</td></tr> <tr><td>2017-18</td><td>-</td><td>1.00 crore</td></tr> <tr><td>2018-19</td><td>-</td><td>1.32 crores</td></tr> <tr><td>2019-20</td><td>-</td><td>1.525 crores</td></tr> <tr><td>2020-21</td><td>-</td><td>2.92 crores</td></tr> <tr><td>2021-22</td><td>-</td><td>2.94 crores</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td>13.04 crores</td></tr> </table> <p>At present, we have reduced the gap of ₹ 13.04 crores.</p> <p>At the end of the financial year 2021-22 balance in the Staff Pension and Gratuity was ₹ 18.64 crores. Over the years SPFO has succeeded in narrowing the deficit from ₹ 16.60 crores in F. Y. 2015-16 to ₹ 2.27 crores in F.Y. 2021-22.</p> <p>In the financial year 2022-23 ₹ 1.67 crores has already been transferred as per budget provisions and ₹ 3.06 crores proposed for Staff Pension and Gratuity fund in the Revised Estimate for the financial year 2022-23 to the Government for approval.</p> <p>It may be assured to transfer sufficient fund of ₹ 3.06 crores in Staff Pension and Gratuity account in financial year 2022-23 subject to approval of the proposal of Revised Estimate for the financial year 2022-23.</p> <p>There is no provision in the SPFO software to calculate Interest on unposted items separately therefore it is not feasible to arrive at the correct interest amount. However, in order to avert overdrawal of interest and also to maintain a rate of interest at a sustainable level in future by keeping some cushion in interest suspense account as reserve. It is informed that total accumulated amount of ₹ 58.80 crore lying in "Interest Suspense Account" up to the financial year 2021-22.</p> <p>At the time of clearance of unposted the beneficiary will be eligible to interest from the date of receipt of the Provident Fund contribution from his employer.</p> <p>Meanwhile it has been decided to outsource the work of computation of interest on unposted items.</p> <p>This office had approached to the CPWD vide letter No.855-II/101/21.-22, dated 26.05.2022, 855-II/345/2021-22 dated 29.08.2022 and 855/III/470/21-22 dated 18.10.2022 regarding providing the Utilisation certificate/ list of Fixed Assets along with their value in rupees in order to enable us to take in the financial statements for the financial year 2022-23.</p> <p>The software is not fully delivered by the NICS I or its vendor. In such situation, it is not feasible to compute the valuation of the software. On receipt of Certificate of Completion from the NICS I, the cost of the software may incorporate in the Fixed Assets register.</p>	2012-13	-	0.35 crores	2013-14	-	0.35 crores	2014-15	-	0.55 crores	2015-16	-	1.10 crores	2016-17	-	0.98 crores	2017-18	-	1.00 crore	2018-19	-	1.32 crores	2019-20	-	1.525 crores	2020-21	-	2.92 crores	2021-22	-	2.94 crores	Total		13.04 crores
2012-13	-	0.35 crores																																
2013-14	-	0.35 crores																																
2014-15	-	0.55 crores																																
2015-16	-	1.10 crores																																
2016-17	-	0.98 crores																																
2017-18	-	1.00 crore																																
2018-19	-	1.32 crores																																
2019-20	-	1.525 crores																																
2020-21	-	2.92 crores																																
2021-22	-	2.94 crores																																
Total		13.04 crores																																

Comments	Reply
<p>A.3 Investments from Earmarked/Endowment Funds (Schedule9) - ₹ 2505.62 crore Debentures and Bonds - ₹ 733.27 crore</p> <p>SPFO had invested an amount of ₹ 18.30 crore in Non-convertible Debentures (NCDs) of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL&FS) entities.</p> <p>As per proceedings (February 2019) before National Company Law Appellate Terminal (NCLAT), two IL&FS entities (IL&FS Limited and IL&FS Financial Services) have been placed under the Red category by the new Board of Directors appointed by the Union Government to manage the affairs of IL&FS Group of companies, which means that such entities cannot make their payment obligations even towards senior secured financial creditors. Instead of making full provision, SPFO provided an amount of ₹ 4.49 crore each for the years 2020-21 and 2021-22 respectively towards diminution in the value of investment in NCDs of IL&FS.</p> <p>As per Portfolio Manager (April 2022) 'liquidation value is not yet ascertained which is needed for ascertaining distribution between secured and unsecured lenders'. However, SPFO has not made full provision for the bad investments. Short provisioning of ₹ 9.32 crore (₹ 18.30 – ₹ 8.98) has resulted in overstatement of Investments from Earmarked/Endowment Funds and overstatement of Earmarked Endowment Funds.</p> <p>The above issue is being raised in the Separate Audit Report since 2018-19.</p> <p>B.1 General</p> <p>As per Section 18 Seamen's Provident Fund Act 1966, where any employer makes default in the payment of any contribution to the fund or in the payment of any charges payable under any of the provisions of this Act or under the scheme, the Government may recover from the employees such damages. The Board decided to levy damages @15% (w.e.f. October 2001). The Board also decided (February 2014) that the damages recovered from the Shipping Companies/ Employers shall be credited in concerned Seaman's account upto the extent of interest due on his delayed payment. The rest of the damages amount recovered may be transferred to Administrative Account along with Administrative charges and it should be enforced w.e.f. 01.04.2013.</p> <p>Seamen's Provident Fund Organisation collected ₹ 3.32 crore as damages for delayed contributions towards PF and Admin charges from the Employer for the period 2013-14 to 2021-22. Though SPFO accounted ₹ 0.12 crore as its income (admin charges) the damages of ₹ 3.20 crore towards PF has not been credited to Seamen's Provident Fund Account (CDC) so far. Instead the same has been credited to "Interest Suspense Account (Schedule3).</p> <p>This has resulted in understatement of SPF Main Account and overstatement of Interest Suspense Account under the head "Earmarked / Endowment Fund" by ₹ 3.20 crore.</p> <p>C. Management Letter</p> <p>Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of Seamen's Provident Fund Organization through a Management Letter being issued separately for remedial/ corrective action.</p> <p>(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai as at 31 March 2022; and</p> <p>(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.</p> <p style="text-align: center;">For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India.</p> <p style="text-align: center;">Sd/- (Gulajari Lal) Director General of Audit (Shipping), Mumbai</p> <p>Place : Mumbai, Date : 29 March, 2023</p>	<p>As per Portfolio Manager's advice in the Board meeting, out of total ₹ 18.30 Crores, invested amount in IL&FS ₹ 4.49 Crores amortized in F.Y.2020-21 & ₹ 4.49 Crores provision made in F.Y.2021-22. As per advice of Fund Manager, it was decided in the 143rd Board of Trustees meeting held on 09.11.2022 that the remaining 50% amount is not so large & it is receivable in final settlement of IL&FS will be probably done in 2022-23. However, till date it is not received. Portfolio Manager advised that it will be better to make provision in the next financial year i.e. 2022-23 after the settlement received from IL&FS. Extract copy of the Minutes is forwarded herewith for reference.</p> <p>Further, it may be assured that SPFO will make provision of remaining amount of the IL&FS in the F.Y.2022-23</p> <p>It is stated that SPFO's software is old version and any amendment in software cannot be feasible at this juncture. The development of new software is under process. In new software, the provision for transferring damages to seafarers account and rest to the administrative account will be provided. On completion of new software it may be feasible to credit the damages to the seafarers accounts</p> <p>Meanwhile it has been decided to outsource the work of computation of interest of individual seafarer since 2013-14</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p style="text-align: center;">Sd/- (Surendra Kumar) Commissioner, Seamen's Provident Fund , Mumbai</p> <p>Place :- Mumbai Date :- 11 April, 2023</p>

ANNEXURE - 1

Comments	Reply
<p>1. Adequacy of the Internal Audit System Internal Audit for the year 2021-22 was carried out by a firm of Chartered Accountants.</p> <p>2. Adequacy of Internal Control System The internal control system needs strengthening in view of the following:</p> <p>i) The amount of recoveries/subscriptions pending posting to individual Provident Fund Accounts (termed as un-posted items and disclosed at Sr. No. 6 of Schedule 25) consists of items related to the period 1998-99 onwards and was getting accumulated and stood at ₹ 29.14 crore as on 31 March 2022.</p> <p>ii) An amount of ₹ 3.20 crore recovered on account of damages on delayed contribution to PF by the employer is pending for credit to the concerned Seamen's PF Account since 2013-14 due to software issue.</p> <p>3. System of Physical Verification of Fixed Assets Physical verification of fixed assets was not carried during the year 2021-22.</p> <p>4. System of Physical Verification of Inventory Physical verification of inventory is not applicable to SPFO as it has no inventory.</p> <p>5. Regularity in payment of dues SPFO was regular in payment of undisputed statutory dues.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- Deputy Director</p> <p>Place: Mumbai, Date: 29 March, 2023.</p>	<p>Noted</p> <p>The unposted items are generated mainly due to amount received from employers on account of Provident Fund contributions of a seafarers without providing mandatory details of seafarer viz Name, CDC Number, Voyage period, Date of Birth etc. Such amount goes to unposted account. However, it is a recurring process and best efforts are made by SPFO to minimise it.</p> <p>It is stated that SPFO's software is old version and any amendment in software cannot be feasible at this juncture. The development of new software is under process. In new software, the provision for transferring damages to seafarers account and rest to the administrative account will be provided. On completion of new software it may be feasible to credit the damages to the seafarers accounts.</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p style="text-align: right;">Sd/- (Surendra Kumar) Commissioner Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai</p> <p>Place: Mumbai, Date: 11 April, 2023</p>

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022

(AMOUNT - ₹)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
CORPUS / CAPITAL FUND	1	120,344,892.89	112,202,171.54
RESERVES AND SURPLUS	2		
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	26,102,461,655.45	23,704,901,984.23
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	NIL	NIL
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	NIL	NIL
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	112,2652.30	1,122,652.30
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	211,514,669.84	154,222,540.68
TOTAL		26,435,443,870.48	23,972,449,348.75
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	1,031,477.53	916,097.31
INVESTMENTS FORM - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	9	25,506,222,883.28	23,203,432,934.17
INVESTMENTS - OTHERS	10	97,328,138.54	88,888,114.26
CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES ETC.	11	83,08,61,371.13	679,212,203.01
MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		26,435,443,870.48	23,972,449,348.75

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(AMOUNT - ₹)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		2021-22	2020-21
INCOME			
Income From Sales / Services	12	59,645,628.91	56,453,139.88
Grants / Subsidies	13	nil	nil
Fees / Subscriptions	14	nil	nil
Income from Investments (Income on Invest from Earmarked to Funds)	15	11,973,342.28	9,910,961.68
Income from Royalty, Publication etc.	16	nil	nil
Interest Earned Accrued Int Adjustment to Prior Period	17	(6,184,255.34)	(4,466,668.48)
Other Income (+) Expenses Written Back	18	131,000.00	59,644.00
Increase (Decrease) in Stock of Finished Goods and Works-in-progress	19	nil	nil
TOTAL (A)		65,565,715.85	61,957,077.08
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	51,449,852.00	49,218,822.00
Other Administrative Expenses etc.	21	5,674,574.72	7,599,186.14
Expenditure on Grants Subsidies etc.			
Capital Loss on Maturity of Security	22	nil	nil
Loss on Sale of Fixed Assets			
Amortisation on Securities	23	1,137.00	1,136.99
Depreciation (Net Total at the Year End)		297,430.78	367,855.89
Corresponding to Schedule 8			
TOTAL (B)		57,422,994.50	57,187,001.02
Balance being Excess of Income Over Exp. (A-B)		8,142,721.35	4,770,076.06
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer To / From General Reserve			
Balance being Surplus/Deficit carried to Corpus /Capital Fund			
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Superintendent	Office Superintendent	Asst. Adm. Accounts Officer	Adm. Cum Accounts Officer	Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULES 1 - CORPUS / CAPITAL FUND:	CURRENT YEAR 2021-2022		PREVIOUS YEAR 2020-2021	
Balance as at the beginning of the year	11,22,02,171.54		109,022,095.48	
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-		(1,590,000.00)	
Add/(Deduct) : Balance of Income / (Expenditure)	81,42,721.35		4,770,076.06	
Transferred from the Income & Expenditure Account				
BALANCE AS AT THE YEAR - END		120,344,892.89		112,202,171.54
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS AND OTHER FUNDS				
1. Capital Reserves:				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
2. Revaluation Reserves:				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
3. Special Reserves:				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
4. General Reserves				
Income & Expenditure Account	NIL		NIL	
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
5 Interest Suspense Account				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
Total		NIL		NIL

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022 (AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 3 :	FUND WISE BREAK UP					TOTALS	
	SPF MAIN ACCOUNT	SPF INTEREST SUSPENSE ACCOUNT	SPF FORFEITURE ACCOUNT	SPF STAFF GPF ACCOUNT	SPF STAFF PENSION & GRATUITY FUND	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
(Forfeiture Fund + SPF + Staff GPF + Pension & Gratuity)							
a) Opening Balance of Funds	22,955,192,567.60	539,574,964.92	51,649,227.56	11,535,326.30	146,949,897.85	23,704,901,984.23	21,064,123,905.78
b) Additions of the Funds :							
i) Donations / Grants							
ii) Income from Investments made on account of funds	1,342,166,980.00	1,716,581,284.61	3,259,641.00	661,065.28	7,906,547.99	3,070,675,518.83	2,287,000,236.26
iii) Other additions (specify nature)	1,821,734,768.97	631,801,951.99	3,468,609.30	3,320,715.14	44,887,278.25	2,505,213,323.65	3,102,660,863.85
TOTAL (a + b)	26,119,094,316.57	2,888,058,201.52	58,377,477.86	15,517,106.72	199,743,724.09	29,280,790,826.76	26,453,785,005.89
c) Utilisation / Expenditure towards objectives of funds							
i) Capital Expenditure							
- Fixed Assets							
- Others	858,567,367.15	2,300,091,055.50	3,564,461.34	2,775,167.72	13,331,119.60	3,178,329,171.31	2,748,883,021.66
Total	858,567,367.15	2,300,091,055.50	3,564,461.34	2,775,167.72	13,331,119.60	3,178,329,171.31	2,748,883,021.66
ii) Revenue Expenditure							
- Salaries, Wages and allowances etc.							
- Rent							
Total							
TOTAL (c)	858,567,367.15	2,300,091,055.50	3,564,461.34	2,775,167.72	13,331,119.60	3,178,329,171.31	2,748,883,021.66
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a + b - c)	25,260,526,949.42	587,967,146.02	54,813,016.52	12,741,939.00	186,412,604.49	26,102,461,655.45	23,704,901,984.23

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

	CURRENT YEAR 2021-22		PREVIOUS YEAR 2020-21	
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:				
1. Central Government	Nil	Nil	Nil	Nil
2. State Governments	Nil	Nil	Nil	Nil
3. Financial Statements				
A) Terms Loans	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
4. Banks				
A) Terms Loans	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Other Loans (Specify)	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Other (Specify)				
Total	Nil	Nil	Nil	Nil
Note : Amounts due within one year				

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. Central Government	Nil	Nil
2. State Governments (Specify)	Nil	Nil
3. Financial Institutions	Nil	Nil
4. Bank:	Nil	Nil
A) Terms Loans	Nil	Nil
B) Other Loans (Specify)	Nil	Nil
5. Other Institutions and Agencies	Nil	Nil
6. Debentures and Bonds	Nil	Nil
7. Fixed Deposits	Nil	Nil
8. Others (specify)	Nil	Nil
TOTAL	Nil	Nil
Note : Amounts due within one year		
SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
A) Acceptances Secured by Hypothecation of Capital		
Equipment and other Assets		
B) Others: Returned Cheque		
As per last Balance Sheet	1,122,652.30	1,122,652.30
Additions during the year	-	-
Less: Payment during the year		
TOTAL	1,122,652.30	1,122,652.30
Note : Amounts due within one year or more		

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	CURRENT YEAR 2021-22		PREVIOUS YEAR 2020-21	
A) Current Liabilities				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors	151,873,674.60		148,648,189.68	
a) For Goods				
b) Others	5,774,648.00	157,648,322.60	3,329,169.00	151,977,358.68
3. Advances Received	-		-	
4. Interest Accrued but not due on				
a) Secured Loans / Borrowings				
b) Unsecured Loans / Borrowings				
5. Statutory Liabilities				
a) Overdue				
b) Others		-		-
6. Others Current Liabilities	52,027,075.24	52,027,075.24	655,182.00	655,182.00
TOTAL (A)		209,675,397.84		152,632,540.68
B) Provisions				
1. For Taxation	249,272.00			
2. Gratuity				
3. Superannuation				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. Trade Warranties / Claims				
6. Others (Specify) Doubtful Investment	1,590,000.00	1,839,272.00	1,590,000.00	1,590,000.00
TOTAL (B)		1,839,272.00		1,590,000.00
TOTAL (A + B)		211,514,669.84		154,222,540.68

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022 (AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
a) CURRENT INVESTMENTS		
1. IN GOVERNMENT SECURITIES (SPF MAIN+FORFEITURE+STAFF SPF+STAFF PENSION)		
2. OTHER APPROVED SECURITIES (STATE)		
3. SHARES (MUTUAL FUND)		
4. DEBENTURES AND BONDS		
5. MONEY MARKET / INSTRUMENTS	40,000,000.00	77,300,000.00
6. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES		
7. OTHERS (TO BE SPECIFIED) (TDR)		
TOTAL	40,000,000.00	77,300,000.00
B) LONG TERM INVESTMENTS		
1. IN GOVERNMENT SECURITIES (SPF MAIN+FORFEITURE+STAFF SPF+STAFF PENSION)	5,463,185,400.50	5,540,331,145.90
2. OTHER APPROVED SECURITIES (STATE)	10,692,390,649.77	9,649,339,980.64
3. SHARES (MUTUAL FUND)	1,669,840,944.86	1,074,996,719.13
4. DEBENTURES AND BONDS	7,332,722,672.29	6,551,388,088.50
5. MONEY MARKET / INSTRUMENTS	-	
6. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES	-	-
7. OTHERS (TO BE SPECIFIED) (TDR)	35,51,96,000.00	312,277,000.00
TOTAL	25,513,335,667.42	23,128,332,934.17
LESS : PROVISIONS FOR DOUBTFUL INVESTMENTS IN IL&FS	(44,912,784.14)	-
LESS : PROVISIONS FOR DIMINUTION IN VALUE OF INVEST. (PROVISION)	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)
NET TOTAL (B)	25,466,222,883.28	23,126,132,934.17
TOTAL (A + B)	25,506,222,883.28	23,203,432,934.17

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022 (AMOUNT - ₹)

SCHEDULE10 - INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
a) CURRENT INVESTMENTS		
1. IN GOVERNMENT SECURITIES (SPF MAIN+FORFEITURE+STAFF SPF+STAFF PENSION)		
2. OTHER APPROVED SECURITIES (STATE)		
3. SHARES (MUTUAL FUND)		
4. DEBENTURES AND BONDS		
5. MONEY MARKET / INSTRUMENTS		
6. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES		
7. OTHERS (TO BE SPECIFIED) (TDR)		
TOTAL		
b) LONG TERM INVESTMENTS		
1. IN GOVERNMENT SECURITIES (SPF MAIN+FORFEITURE+STAFF SPF+STAFF PENSION)	1,286,138.53	1,782,915.25
2. OTHER APPROVED SECURITIES (STATE)	2,400,000.00	2,400,000.00
3. SHARES (MUTUAL FUND)	-	
4. DEBENTURES AND BONDS	-	
5. MONEY MARKET / INSTRUMENTS	-	
6. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES	-	
7. OTHERS (TO BE SPECIFIED) (TDR)	96,042,000.01	87,105,199.01
TOTAL	99,728,138.54	91,288,114.26
LESS : PROVISIONS FOR DIMINUTION IN VALUE OF INVEST. (PROVISION)	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
NET TOTAL (b)	97,328,138.54	88,888,114.26
TOTAL (a + b)	97,328,138.54	88,888,114.26

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES	CURRENT YEAR 2021-22		PREVIOUS YEAR 2020-21	
A) Current Assets:				
1. Inventories:				
a) Stores and Spares	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Loose Trade	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Stock in Trade				
Finished Goods				
Work in Progress				
Raw Materials				
2. Sundry Debtors:				
a) Debts Outstanding for a Period Exceeding Six Months	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Others (Advance to Staff)	Nil	Nil -	Nil	
3. Cash Balances in Hand (including Cheques/Drafts & Inst.)		19,143.25		16,841.60
4. Bank Balance:				
a) With Scheduled Banks	Nil		Nil	
On Current Accounts	Nil		Nil	
On Deposit Accounts (includes Margine Money)	Nil		Nil	
On Savings Accounts		125,935,116.88		73,934,635.72
b) With Non-scheduled	Nil		Nil	
On Current Accounts	Nil		Nil	
On Deposits Accounts	Nil		Nil	
On Savings Accounts	Nil		Nil	
Cash - in - Transit				
5. Post Office Savings Accounts	Nil		Nil	
	Nil		Nil	
Total	-	125,954,260.13	-	73,951,477.32

Sd/-
Dy. Superintendent
Sd/-
Office Superintendent
Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer
Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer
Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022 (AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES	CURRENT YEAR 2021-22		PREVIOUS YEAR 2020-21	
B) Loans Advances and other Assets				
1. Loans				
a) Staff	211,937.00		379,261.00	
b) Other Entities Engaged in Activities / Objectives				
c) Other (Specify)				
TDS Recoverable Amount/ PF Due Recoverable	2,238,471.38		1,863,948.38	
Admn. Charges Recoverable				
Sundry Deposits (Advances to Parties)	21,575.00	2,471,983.38	69,365.00	2,312,574.38
2. Advances and other Amounts Recoverable in Cash of in kind or for value to be received:				
a) On Capital Account	13,826,328.00	13,826,328.00	12,909,912.00	12,909,912.00
b) Payments	NIL	-	NIL	-
c) Other (prepaid Expenses)	297.00	297.00	269.00	269.00
3. Income Accrued:				
a) On invest from Earmarked/Endowment Funds(Accrued)	654,832,153.90	654,832,153.90	583,015,864.08	583,015,864.08
b) With Non-scheduled Banks				
c) On Loans And Advances				
d) Others (includes Income Due Unrealized)				
4. Claims Receivable	33,776,348.72	33,776,348.72	7,022,106.23	7,022,106.23
TOTAL (B)		704,907,111.00		605,260,725.69
TOTAL (A+B)		830,861,371.13		679,212,203.01

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022**

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods		
b) Sale of Raw Materials		
c) Sale of Scraps		
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges		
(Income from Receipts of Admin. Charges from Shipping Co.)	59,512,195.41	56,388,315.93
b) Professional / Consultancy Services (Damages)	155,425.95	64,823.95
c) Agency Commissions and Brokerage		
d) Maintenance Service (Equipments / Property)		
e) Refund to Shipping Companies	(21,992.45)	-
f) Sale of Assets		-
g) Other (Specify)		-
TOTAL	59,645,628.91	56,453,139.88
SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
(irrecoverable Grants & Subsidies Received)	Nil	Nil
1. Central Governments	Nil	Nil
2. State Government(s)	Nil	Nil
3. Governments Agencies	Nil	Nil
4. Institutions / Welfare Bodies	Nil	Nil
5. International Organizations	Nil	Nil
6. Others (Specify)	Nil	Nil
TOTAL	Nil	Nil

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022**

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
1. Entrance Fees	Nil	Nil
2. Annual Fees / Subscriptions		
3. Seminar / Programme Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Others (specify)	Nil	Nil
Note : Accounting policies towards each item are to be disclosed.		
Total	Nil	Nil

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(Income on investment from earmarked/endorsement funds transferred to funds)	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1. Interest				
a) On Govt./State Securities	945,324,945.33	864,249,611.56	118,108.00	137,958.00
b) Other Bonds/Debentures	525,673,271.96	409,147,936.94		
c) SDS	242,774,371.69	250,259,203.00		
2. Dividends				
a) On Shares	-	-		
b) On Mutual Fund Securities	-	37,310,000.00		
3. Rents	-	-		
4. (a) Other (Specify) (TDR)		9,125,195.00	11,706,260.00	9,648,037.00
(b) Capital Gain	12,278,091.63	168,749,353.07	4,360.28	-
5. Saving Bank Interest Accounts	2,543,959.00	1,948,950.95	144,614.00	124,966.68
TOTAL	1,728,594,639.61	1,740,790,250.52	11,973,342.28	9,910,961.68
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	1,728,594,639.61	1,740,790,250.52	11,973,342.28	9,910,961.68
NOTE : The interest on investment from Earmarked Fund directly credited to respective fund A/c.				

Sd/- Dy. Superintendent	Sd/- Office Superintendent	Sd/- Asst. Adm. Accounts Officer	Sd/- Adm. Cum Accounts Officer	Sd/- Commissioner
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
1. Income from Royalty	NIL	NIL
2. Income from Publication		
3. Others (specify)		
Total	NIL	NIL
Schedule 17 - Interest Earned/Accrue Interest		
1. On Terms Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others/accrued	(6,184,255.34)	(4,466,668.48)
2. On Savings Accounts		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
3. On Loans		
a) Employees / Staff		
b) Others		
4. Interest On Debtors And Other Receivables		
Total	(6,184,255.34)	(4,466,668.48)
Note : Tax Deducted at Sources to be indicated		

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022**

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE - 18 OTHER INCOME	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
1. Profit on Sale Disposal of Assets		
a) Owned Assets		
b) Assets Acquired Out of Grants or Received Free of Cost		
2. Export Incentives Realized		
3. Excess Provision Written Back	-	44,870.00
4. Miscellaneous Income	131,000.00	14,774.00
Appreciation	-	-
TOTAL	131,000.00	59,644.00
SCHEDULE - 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
a) Closing Stock		
Finished Goods		
Work in Progress		
b) Less : Opening Stock		
Finished Goods		
Work In Progress		
NET INCREASE/(DECREASE) (A - B)		
SCHEDULE - 20 ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
a) Salaries and Wages / Arrear of 7th CPC	7,013,432.00	6,803,300.00
b) Allowances and Bonus/MACP	4,803,764.00	3,612,220.00
c) Contribution to Provident Fund		
d) Contribution to Other Fund (Specify) (Gratuity, Leave Salary and Pension Fund)	29,562,212.00	29,200,000.00
e) Staff Welfare Expenses (Medical Bills/Tution Fees Reimbu/MACP)	506,357.00	523,727.00
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefit	9,557,289.00	8,982,819.00
g) Other (Specify) Encashment of Leave	-	56,856.00
h) Honorarium	6,798.00	39,900.00
TOTAL	51,449,852.00	49,218,822.00

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Superintendent	Office Superintendent	Asst. Adm. Accounts Officer	Adm. Cum Accounts Officer	Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
a) PURCHASES		
b) LABOUR		
c) CARTAGE AND CARRIAGE INWARDS		
d) ELECTRICITY AND POWER	163,644.57	145,108.00
e) WATER CHARGES	-	
f) INSURANCE	862.00	804.00
g) REPAIRS & MAINTENANCE INCLUDING DEVELOPMENT SOFTWARE	340,635.00	1,867,845.00
h) EXCISE DUTY		
i) RENT RATES AND TAXES	343,922.00	335,970.00
j) VEHICLES RUNNING AND MAINTENANCE		
k) POSTAGE TELEPHONE AND COMMUNICATION CHARGES	414,455.00	221,175.00
l) PRINTING AND STATIONARY	101,648.00	256,574.00
m) TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES	516,050.00	920,021.00
n) EXPENSES ON SEMINAR / WORK SHOPS		
o) SUBSCRIPTION EXPENSES / NEWS PAPERS AND PERIODICAL BOOKS	37,088.00	29,424.00
p) EXPENSES ON FEES/DEMAT CHARGES	17,520.80	20,058.54
q) AUDITORS REMUNERATION	293,548.00	373,038.00
r) HOSPITALITY EXPENSES	80.00	-
s) PROFESSIONAL CHARGES	85,750.00	88,690.00
t) PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS / ADVANCES		
u) IRRECOVERABLE BALANCES WRITTEN OFF		
v) RUBBER STAMP	-	-
w) FREIGHTS AND FORWARDING EXPENSES	-	
x) DISTRIBUTION EXPENSES	-	
y) ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	-	
z) (i) OTHER (SPECIFY) MISCELLANIOUS EXPENSES	253,645.35	326,463.00
(ii) CONTRACTUAL EMPLOYEE	3,099,603.00	2,706,829.00
(iii) NON-RECURRING REVENUE		
(iv) Leave Salary and Pension Contribution		-
A-1) DIGITIZATION	-	257,884.00
B-1) SWACHH BHARAT ABHIYAN	2,797.00	47,362.60
C-1) TDS CHARGES	3,326.00	1,940.00
TOTAL	5,674,574.72	7,599,186.14

Sd/-
Sd/-
Sd/-
Sd/-
Sd/-

Dy. Superintendent
Office Superintendent
Asst. Adm. Accounts Officer
Adm. Cum Accounts Officer
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
a) Grants Given To Institutions / Organization		
b) Subsidies Given To Instituion/organization / Capital Loss On Maturity Of Govt Security	-	-
c) Loss On Sale Of Fixed Assesst	-	-
TOTAL	-	-
Note : Name Of The Entities, Their Activities Along With The Amount Of Grants / Subsidies Are To Be Disclosed		
SCHEDULE - 23 - INTEREST/ AMORTIZATION	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
a) On Fixed Loans	Nil	Nil
b) On Other Loans (including Bank Charges)	Nil	Nil
c) Amortization On Securities	Nil	Nil
d) Appreciation	1,137.00	1,136.99
TOTAL	1,137.00	1,136.99

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

FORM OF THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANIZATIONS)
Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022 AND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022**

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the Accrual basis except Administrative Charges from Shipping Companies and Damages (Penal Charges) for delayed payments from Shipping Companies which are accounted on Actual Receipt (Cash) Basis, as the receivable amounts are not determinable. The Accounts are prepared mainly on the principles 'Going Concern and Conservatism'.

2. Revenue Recognition

- (i) The Provident Fund Contributions are accounted for on Accrual Basis. Although Articles of Agreement are received on the employment of seamen on ships (i.e. sign on), Provident Fund and other Contributions are remitted within stipulate period of 30 days after sign off of seamen. It is not practicable to Account Provident Fund Contributions on due basis.
- (ii) The income arising from Administrative Charges is also accounted for on Cash Basis. It is also not practicable and prudent to account for income from Administrative Charges on Accrual Basis in view of principle of conservatism.
- (iii) The income arising from penal charges on delayed payment of Contributions (Damages) is also accounted for on Cash Basis. The claims for damages are lodged from system generated reports. The damages due can be crystallized only on receipt of explanation/clarifications from Shipping Companies. Many times, claims are required to be withdrawn due to reasons viz. mistake / error in data in Provident Fund return, continuous period of voyage, arrears payment etc. Hence, it is prudent to account for damages on Cash Basis to reflect true and fair picture and to avoid distortion.
- (iv) Interest income on investments in Bonds, Bank Deposits, Government Securities etc. is accounted for on Accrual Basis and has been worked out on time proportion basis taking into account face value of the Securities invested and rate of return/ interest as applicable.

3. Expenditure Recognition

- (i) All the obligatory outstanding expenses pertaining to the current year 2021-22 but incurred / to be incurred subsequently are accounted for on Accrual Basis.
- (ii) The pre-paid expenses sub-merged in the current year's expenditure are also segregated and shown under a separate head.

4. Assets

- (I) Fixed assets acquired during the year are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition less depreciation worked out as per Income Tax Act, 1961.

- (ii) The fixed assets are taken at Written Down Value on 01/04/2021 less depreciation during the year as per rates specified under Income Tax, Act, 1961.

5. Depreciation

- (i) Depreciation is provided on WDV method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 to relevant financial year.
(ii) In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered as per Income Tax Act, 1961.

6. Investments

- (i) The investments are valued at cost. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.
(ii) Premium paid on acquisition of Investments are amortised on a time proportion basis upto the date of maturity. On the other hand, Securities acquired at discount are not appreciated to the face value proportionately over the period of investment which is against the provision of Uniform Format of accounts..

7. Government Grants / Subsidies

- (i) No Government grants are received during the year.

8. Other Disclosures

- (i) Employers' Contributions forfeited under Para 59 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 are transferred to Forfeiture Account under Para 61 (3) ibid. During the year 2021-22 Rs.32,155.75 has been forfeited under Para 59 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966.
(ii) Interest earned on investments of Seamen's Provident Fund monies is credited to Interest Suspense Account and interest at the rate approved by the Government for the year is appropriated from this account to Seamen's Provident Fund Accounts. During 2021-22, the interest accrued on investment but not received has been credited to this account as per mercantile / accrual method of accounting. Interest received during the year 2021-22 but pertaining to previous year/s is shown under separate heading.

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

FORM OF THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANIZATIONS)
Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022 AND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022**

SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

Claims against the Organisation not acknowledge as debts.

2. Current Assets, loans and advances

In the opinion of the management, the current assets, loan and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Taxation

For the purpose of income Tax Act, 1961, the Fund shall be deemed to be a recognized Provident Fund within the meaning of that Act, by virtue of section 11 of Seamen's Provident Fund Act, 1966. As such the income of the Fund is not liable for Income Tax. Since the Seamen's Provident Fund Organization is exempted from Income Tax Act 1961 in terms of section 10 (25) Income Tax Act 1961, provision for tax is not necessary.

4. Remuneration to Auditors

As auditors/Internal Auditors / Government Audit Dept.	Rs. 293,548.00
Taxation matters	Nil
For management services for certification	Nil
Others	Nil

5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged/reorganized wherever necessary. The figures for the current year are on accrual basis as per Common Format of Accounting.

6. The Details of the periodicity of un-posted items:

Sr. No.	Particulars	No. of Entries	Amount in Rs.
i.	Balance as per Last report	12959	201,894,086.02
ii	Add: During the year 2021-22	8646	132,345,759.25
iii	Total	21605	334,239,845.27
iv	Less: Cleared during the year	3750	42,748,108.96
v.	Balance	17855	291,491,736.31

Schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2022 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date.

7. Other Disclosures

- (I) As on 31.3.2022 the total Book value is Rs. 25,272,226,165.85 and Face value is Rs. 25,199,092,533.50 and market value is Rs. 25,928,830,360.13 (including bad investments).
- (ii) Adequate provision for the following doubtful investments has been made as efforts to recover the amounts due have not been successful so far :-

Sr No.	Seamen's Provident Fund:		
(A)	Administration Account:		
	16% UP Spinning Mills	:	2,400,000.00
(B)	Staff Pension & Gratuity Fund:		
	16% UP Spinning Mills	:	2,200,000.00
	Grand Total	**	4,600,000.00

- (iii) Legal efforts to recover principal & interest on non-performing investments continue.
- (iv) Pension and Gratuity Actuarial valuation was carried out by M/s. Global Risk Consultant upto 31.03.2022 for 10 staff members, 3 NPS staff members and 31 pensioners of Seamen's Provident Fund Organization. As per their actuarial valuation the total liabilities is Rs. 20.91 crores and the actual balance in the fund as on 31/03/2022 is Rs. 17.31 crores. Further, it is submitted that Rs. 3.61 crores deficit against the accumulated Fund in the Pension and Gratuity Account as per actuarial valuation done in 2022. In this connection, a letter dated 26.05.2017 was written to the Ministry requesting to consider one time Grant for recoup of the fund. However, Rs.2.94 crore have been transferred from Administrative Account to Pension and Gratuity Fund on adhoc basis during the financial year after approval of the Board of Trustees.

- (v) Invested Rs.104.43 crores in non-convertible debenture (NCD) of DHFL downgraded by the Credit Rating Agency (CRISIL). It was treated as bad investment in the F.Y. 2021-22 the final settlement of DHFL securities made as under.

	Cash transferred in Bank (crores)	New Securities issued of Piramal (crores)	Total Receipt against settlement	Amortization Capital Loss (crores)	Grand Total (crores)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
			(B+C)		(D+E)
Amortization (Capital Loss booked for F.Y.2020-21)				25.51	25.51
Settlement of DHFL in F.Y.2021-22	22.96	27.62	50.58	28.25	78.83
Total(Crores)	22.96	27.62	50.58	53.76	104.34

- (vi) Investment in IL&FS amounted to Rs. 18.30 crores treated as bad Investments as interest on these investments were not received during F.Y. 2021-22. As per proceedings (11th Feb. 2019) before NCLAT, two IL&FS entities (IL&FS Ltd and IL&FS Financial Services) have been placed under the 'Red' category by the new Board of Directors appointed by Union Government.
- (vii) Rs. 4.50 crores is diminution from investment in IL&FS security in the F.Y. 2020-21 and as per decision in the 143rd meeting Rs.4.49 crores is diminution in the F.Y. 2021-22 shown as provision for Bad investment as consultation with Internal Auditor.
- (viii) It has been decided in the 138th Board of Trustees meeting that as per SEBI Rules overnight funds are treated as investment in Liquid Fund". Such investment in overnight funds are temporary in nature and Portfolio Manager are looking after better investment opportunities on daily basis.
- (ix) For the Financial year 2021-22 Fixed Asset cost valuation at the year end Rs.13,28,908.31. After depreciation for the current year end is Rs.2,97,430.78 and Net Assets at the end of the current year is Rs.10,31,477.53
- (x) A seaman Shri Brojen Chandra Dey, CDC No.CL16657 filed case in 2005 in the District Conusmer Redressal Forum, Berhampore, Murishidabad for non-receipt of Provident Fund dues. The Fact of the case his claim was settled in the year 2000 and a Cheque amounting to Rs.1,62,703 drawn on State Bank of India, Kidderpore Branch, Kolkata was sent to him at his residential address which was duly acknowledged by him under 'Registered AD'. The bank had already debited this amount to SPFO's Bank Account on 02/11/2000.
- (xi) Recovery of securities or value of Rs.92.78 crores which was lost in scam. The suit No. No.633/2004 – BOT of SPFO V/s. Shri A.K. Gond & Ors. pending before the Hon'ble High Court Mumbai.

- (xii) An amount of Rs.3,46,456.27 was outstanding from the various shipping companies towards Provident Fund since several years. These companies are under liquidation and claims were filed by SPFO with the respective Official Liquidators for recovery of the outstanding dues.
- (xiii) Pattern of Investment issued by MOF vide its Notification F.NO.11/14/2013-PR dated 2nd March 2015 is being followed by SPFO for investment through Portfolio Manager Services.
- (xiv) In addition to the contribution towards PF, SPFO also collects Annuity and Exgratia in favour of Seaman's from the employers. Administrative charges not levied on the Annuity and Exgratia amount received.
- (xv) Retirement Benefit Policy will be framed as follows :- Pension, Gratuity and Leave Encashment are defined benefit plans. Seamen's Provident Fund Organisation has incorporated a Pension Fund and Gratuity Fund. The company's liability towards pension, gratuity and leave encashment is accounted for on the basis of an actuarial valuation done at the year end and is charged to revenue accounts as applicable except in case of pension for the employee who joined after 1st April, 2004 which is defined contribution towards pension fund is charged to Revenue Accounts as applicable. The Company has no further obligation beyond the periodic contributions.
- (xvi) During the year, no assets were revalued.
- (xvii) Office Premises of SPFO situated at "3rd Floor, Krupanidhi Building, 9, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai- 400 001" purchased on 19th February, 1970 area 3025 (in square feet). The terms of agreement inter alia provided that SPFO would pay a sum of Rs.1.82 lakh to M/s. Mulraj Tulsidas and Fattenshi Tulsida and Rs.3.93 lakh to M/s. Krupanidhi Ltd. Out of Rs.3.93 lakh paid by SPFO to Krupanidhi Ltd., it issued 120 shares of Rs.100 each and balance Rs.3.81 lakh is treated as deposit from SPFO. Nomenclature of the Asset is "Ownership Flat at Krupanidhi Building" & "Superstructure on Land not belonging to the Entity".
- (xviii) Unclaim amount is pertaining to above 60 years aged (Superannuation) and amount of Rs.34.40 crore has been settled in respect of 656 seafarers. Balance Unclaim amount is Rs.56.81/- crore pending towards No's 5549 (656+5549=6205) seafarers.

The age wise breakup of seafarers no's 5549 as under

Age	Number of Seafarers
60-65	2250
66-70	1585
71-75	785
76-80	460
81-85	220
86-90	202
91-95	47
Total	5549

8. Provident Fund Contributions received towards seafarers who sailed on board vessels of foreign flag is as per bilateral agreement with National Union of Seafarers of India (NUSI) and Employers.
9. Schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2022 and the Income & Expenditure Accounts for the year ended on that date.

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

RECEIPTS	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21	PAYMENTS	CURRENT YEAR 2021-22	PREVIOUS YEAR 2020-21
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash in Hand	6,440.60	8,457.20	a) Establishment Expenses	12,011,828.00	10,688,939.00
b) Bank Balance			b) Administrative Expenses (other)	3,125,745.00	3,316,575.00
i) In current accounts			c) Non-Recurring expenses	1,329,227.00	2,828,380.40
ii) In deposit accounts			d) Recurring	2,436,867.92	3,140,656.60
iii) Saving accounts	73,934,635.72	224,574,610.27			
			II. Payments made against funds for various projects		
			Payment to Krupanidhi	339,360.00	335,970.00
			(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
II. Grants Received			III. Investments and deposits made		
a) From government of India	-	-	a) Out of Earmarked / Endowment Funds	-	-
b) From state government	-	-	b) Out of own Funds (Investments-Others)	4,625,651,172.73	4,023,396,683.13
c) From other sources (details)	-	-	c) Accrued Interest paid on Securities Purchased	28,645,363.71	31,053,001.14
(Grant for capital & Revenue exp. To be shown separately)					
			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work In Progress		
III. Income On Investment from	1,728,185,529.98	1,581,951,859.13	a) Purchase of Fixed Assets		
a) Earmarked/Endow. Funds			b) Expenditure on Capital Assets		
b) Own Funds (Oth. Investment)					
IV. Interest Received			V. Refund of surplus money/Loans		
a) On Bank Deposits			a) Refund to shipping companies (P.F)	269,338.45	
b) Loans, Advances etc.					
V. Other Income (specify)			VI. Finance Charges (Interest)		
i. Mis. Income	131,000.00	14,774.00	(i) Capital Loss	283,821,248.68	152,660.34
ii. Recoveries of advances	169,822.00	612,236.00	(ii) Bank Charges	73,642.74	39,022.46
iii. Other Receipt (security deposit)	48,290.00		VII. Other Payments (Specify)		
iv. Returned Cheque accounts			i) Final Withdrawal	661,386,295.55	267,154,744.38
v. Adm. Charges	59,512,195.41	56,388,315.93	ii) Non Refundable Withdrawal	37,211,227.82	20,375,198.00
vi. Damages (Admn)	155,425.95	64,823.95	iii) NRW released from cashier but not from comp. sys	1,052.00	
VI. Amount Borrowed			iv) Payment of Advances	2,498.00	613,560.00
VII. Any other receipts (give details)			v) EMD Refund to bidder	210,000.00	
i. Contribution from shipping com's	1,639,310,230.57	1,560,537,346.99	vi) Withdrawal from Staff Provident Fund	1,100,800.00	670,000.00
ii. Subs. Staff provident fund	1,578,800.00	1,190,000.00	vii) Returned cheques payment		
iii. Refund of advances staff P.F.	23,350.00	274,000.00	viii) Payment of Gratuity & Pension Commutation	29,400,000.00	29,200,000.00
iv. Investment redeemed	2,232,158,678.82	849,385,569.08	ix) Payment to Pensioner	9,628,569.00	8,825,589.00
v. Forfeited Amount	49,862.75		ix) Payment to Port folio Manager, custodian & consultant	8,198,571.00	550,066.00
vi. Refund of TDS	4,246.00		x) Security Deposit (MTNL)	500.00	
vii. Other - staff Pen. & Gratuity	29,400,000.00	29,200,000.00	xi) Amount trf PF to Admn	793,509.20	
viii. S.P.F.Damages	3,082,953.46	3,191,942.15	xii) Advocate's Fees	25,000.00	
ix. Outstanding - as per trial bal (HBA)	5,575.00	8,811.00	xiii) Amount trf PF to forfeiture	32,155.75	17,707.00
x. Recovery of advance for sundry exp (staff)	-	6,000.00	xiv) Outstanding Payment of last FY 2020-21	8,811.00	15,270.00
xi. Outstanding FW + bal PF	51,568,854.99		xv) Refund- EMD-Tenders		545,000.00
xii. Outstanding Forfeiture	16,274.25		VIII. Closing Balance		
xiii. EMD - Tenders		700,000.00	a) Cash in hand	616.25	6,440.60
Capital Gain	12,296,351.18	168,749,353.07	b) Bank Balance	125,935,116.88	73,934,635.72
TOTAL	5,831,638,516.68	4,476,858,098.77	TOTAL	5,831,638,516.68	4,476,858,098.77

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner